

## सामान्य हिन्दी

### 8. शब्द-संरचना

शब्द-संरचना का आशय नये शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट और शब्द-गठन से है। हिन्दी में दो प्रकार के शब्द होते हैं—रूढ और यौगिक। शब्द रचना की दृष्टि से केवल यौगिक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके नये शब्दों की रचना होती है।

शब्द-रचना प्रायः चार प्रकार से होती है—

#### (1) व्युत्पत्ति पद्धति –

इस पद्धति में मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नये शब्दों की रचना की जाती है। जैसे—‘लिख’ मूल धातु में ‘अक’ प्रत्यय लगाने से ‘लेखक’ शब्द और ‘सु’ उपसर्ग लगाने से ‘सुलेख’ शब्द बनता है। इसी प्रकार ‘हार’ शब्द में ‘सम्’ उपसर्ग लगाने से ‘संहार’ और ‘ई’ प्रत्यय लगाने से ‘संहारी’ शब्द बनता है।

उपसर्ग व प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग करके भी नया शब्द बनता है। जैसे—प्राक्+इतिहास+इक = प्रागैतिहासिक। हिन्दी में इस पद्धति से हजारों शब्दों की रचना होती है।

#### (2) संधि व समास पद्धति –

इस पद्धति में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे—पद से च्युत = पदच्युत, शक्ति के अनुसार = यथाशक्ति, रात और दिन = रातदिन आदि शब्द इसी प्रकार बनते हैं।

शब्दों में संधि करने से भी इसी प्रकार शब्द-रचना होती है। जैसे—विद्या+आलय = विद्यालय, प्रति+उपकार = प्रत्युपकार, मनः+हर = मनोहर आदि।

#### (3) शब्दावृत्ति पद्धति –

कभी-कभी शब्दों की आवृत्ति करने या वास्तविक या कल्पित ध्वनि का अनुकरण करने से भी नये शब्द बनते हैं। जैसे—रातौरात, हाथोंहाथ, दिनोंदिन, खटखट, फटाफट, गड़गड़ाहट, सरसराहट आदि।

#### (4) वर्ण-विपर्यय पद्धति –

वर्णों या अक्षरों का उलट-फेर प्रयोग करने से भी नये शब्द बन जाते हैं। जैसे—जानवर से जिनावर, अँगुली से उँगली, पागल से पगला आदि।

## उपसर्ग

जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे – ‘हार’ एक शब्द है। इस शब्द के पहले यदि ‘सम्, वि, प्र’, उपसर्ग जोड़ दये जायें, तो— सम्+हार = संहार, वि+हार = विहार, प्र+हार = प्रहार तथा उप+हार = उपहार शब्द बनेंगे। यहाँ उपसर्ग जुड़कर बने सभी शब्दों का अर्थ ‘हार’ शब्द से भिन्न है।

उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, मूल शब्द के साथ जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उनमें सन्धि के नियम भी लागू होते हैं। संस्कृत उपसर्गों का अर्थ कहीं-कहीं नहीं भी निकलता है। जैसे – ‘आरम्भ’ का अर्थ है— शुरुआत। इसमें ‘प्र’ उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द ‘प्रारम्भ’ बनता है जिसका अर्थ भी ‘शुरुआत’ ही निकलता है।

#### ◆ विशेष—

यह जरूरी नहीं है कि एक शब्द के साथ एक ही उपसर्ग जुड़े। कभी-कभी एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। जैसे—

- सम्+आ+लोचन = समालोचन।
- सु+आ+गत = स्वागत।
- प्रति+उप+कार = प्रत्युपकार।
- सु+प्र+स्थान = सुप्रस्थान।
- सत्+आ+चार = सदाचार।
- अन्+आ+गत = अनागत।
- अन्+आ+चार = अनाचार।
- अ+परा+जय = अपराजय।

#### ◆ उपसर्ग के भेद –

हिन्दी भाषा में चार प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं—

- (1) संस्कृत के उपसर्ग,
- (2) देशी अर्थात् हिन्दी के उपसर्ग,
- (3) विदेशी अर्थात् उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के उपसर्ग,
- (4) अव्यय शब्द, जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं।

## 1. संस्कृत के उपसर्ग

संस्कृत में कुल बाईस उपसर्ग होते हैं। वे उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। यथा—

उपसर्ग – अर्थ – उदाहरण

1. अति – अधिक, ऊपर – अत्यन्त, अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अत्यधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अतिशीघ्र, अत्याचार, अत्युक्ति, अत्यावश्यक, अत्यल्प, अतिसार, अतीव।
2. अधि – प्रधान, श्रेष्ठ – अधिकार, अधिपति, अधिनियम, अध्यक्ष, अधिकरण, अध्ययन, अधिगम, अधिकृत, अधिनायक, अधिभार, अधिशेष, अध्यादेश, अधीक्षण, अध्यापक, अधिग्रहण, अध्याय।
3. अनु – पीछे, क्रम – अनुचर, अनुसार, अनुग्रह, अनुकूल, अनुकरण, अनुरूप, अनुशासन, अनुरोध, अनुमान, अनुज, अनुबन्ध, अनुष्ठान, अनूदित, अनुप्रास, अन्वेषण, अनुराग, अनुभव, अनुदार, अनुदिन, अन्विति, अनुज्ञा, अनुवर्तन, अन्वय, अनुभार, अन्वीक्षा, अन्वीक्षण, अन्विष्ट, अन्वेषक, अन्वेषक।
4. अप – बुरा, अभाव – अपयश, अपकार, अपव्यय, अपहरण, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपकीर्ति, अपवर्तन, अपशिष्ट, अपवर्जन, अपेक्षा, अपकर्षण, अपघटन, अपवाह, अपभ्रंश।

5. अव – नीचे, हीन, बुरा – अवगुण, अवतार, अवनति, अवरुद्ध, अवधारणा, अवशेष, अवसान, अवकाश, अवमूल्यन, अवसाद, अवधान, अवलोकन, अवसर, अवचेतना, अवाप्ति, अवगत, अवज्ञा, अवस्था, अवमानना।
6. अभि – सामने, पास – अभिमान, अभिमुख, अभिमत, अभिनय, अभिनव, अभिवादन, अभियोग, अभिमन्यु, अभिज्ञान, अभियुक्त, अभिषेक, अभिनेता, अभिराम, अभिवृद्धि, अभिलाषा, अभिकरण, अभीष्ट, अभ्यास, अभ्यांतर, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिशाप।
7. आ – तक, सहित – आजन्म, आमरण, आगमन, आक्रमण, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आदान, आसार, आकर्षण, आलेख, आभार, आधार, आगार, आश्रय, आगत, आकर।
8. उत् – ऊँचा, श्रेष्ठ – उत्साह, उत्कण्ठा, उत्थान, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उद्धार, उज्ज्वल, उद्योग, उल्लेख।
9. उप – पास, गौण, सहायक – उपवन, उपदेश, उपमन्त्री, उपकार, उपनाम, उपनयन, उपस्थिति, उपन्यास, उपचार, उपयोग, उपांग, उपमन्यु, उपराष्ट्रपति, उपकृत, उपहार, उपसंहार, उपलक्ष्य, उपहास, उपकुलपति, उपयुक्त, उपायुक्त, उपखण्ड, उपक्रम, उपग्रह।
10. दुर – बुरा, कठिन, विपरीत – दुर्जन, दुर्दशा, दुर्लभ, दुराचार, दुराशा, दुराग्रह, दुर्भाग्य, दुर्योधन, दुर्गम, दुर्बल, दुर्गति, दुर्वासा, दुर्भिक्ष, दुर्गुण।
11. दुस् – बुरा, कठिन – दुस्साहस, दुष्कार्य, दुश्चरित्र, दुष्कर, दुश्चिन्ता, दुश्शासन, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्तर, दुःस्पर्श।
12. नि – रहित, विशेष, अधिकता – निगम, निपुण, निवारण, निडर, निवास, निदान, निरोध, नियम, निबन्ध, निगमन, निकास, निहित, निहत्था, निधि, निवेश, न्यस्त, निलंबन, निकम्मा, निवृत्त, निकाय, निधन।
13. निर – निषेध, विपरीत, बड़ा, बाहर – निर्लज्ज, निर्भय, निर्णय, निर्दोष, निरपराध, निराकार, निराहार, निरधन, निरोग, निराशा, निर्विघ्न, निर्दोष, निर्गुण, निरभिमान, निर्वाह, निर्जन, निर्यात, निर्दयी, निर्मल, निर्भीक, निरीक्षक, निर्माता, निर्वाचन, निर्विरोध, निरर्थक, निरस्त, निर्निमेष, निर्भय, निरंजन, निरुपम।
14. निस् – रहित, अच्छी तरह से, बड़ा – निश्चल, निश्चय, निस्सार, निस्सन्देह, निश्छल, निष्काम, निस्संकोच, निस्स्वार्थ, निस्स्तारण, निष्कपट, निष्कासन।
15. परा – पीछे, तिरस्कार, विपरीत – पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, परावर्तन, परास्त, पराकाष्ठा।
16. परि – पूर्ण, पास, चारों ओर – परिणाम, परिवर्तन, परिश्रम, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिमाण, परिसर, परिधि, परिणति, परिपक्व, परिचर्या, परिचर्चा, परिकल्पना, परिभ्रमण, पर्यावरण, पर्यवेक्षण, परीक्षा, परिणय, परिग्रह, पर्यटन, परिचय।
17. प्रति – प्रत्येक, उल्टा – प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिक्रमण, प्रतिमास, प्रतिरोध, प्रतिलिपि, प्रतिमान, प्रतिग्राम, प्रतिज्ञा, प्रत्यावर्तन, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, प्रतीक्षा।
18. प्र – अधिक, आगे, उत्कृष्ट – प्रथम, प्रबल, प्रहार, प्रभाव, प्रकार, प्रदान, प्रयोग, प्रचार, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रपंच, प्रगति, प्रदर्शन, प्रलय, प्रमाण, प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रस्थान, प्रेषण, प्रमेय, प्रवेश, प्रलाप, प्रज्वलित, प्रमोद, प्रकाश, प्रदीप।
19. वि – विशेष, अभाव, भिन्न – वियोग, विभाग, विनाश, विज्ञान, विजय, विदेश, व्याकुल, विकृत, विकट, विपक्ष, विचार, विशेष, विराम, विकल, विमल, विरोध, विकास, विवृत्त, विमान, व्याकरण, विख्यात, विलोम, विवाद, विवाह।
20. सम् – सम्पूर्ण, उत्तम, अच्छी तरह – संसार, सम्मान, संतोष, संयोग, संकल्प, संचय, संगम, संगति, सम्बोधन, समीक्षा, संहार, संवाद, सम्मति, समाचार, समुचित, समर्थ, सन्देह, संविधान, संचालन, समर्पण, संक्षेप, संशय, सम्पर्क, संसद, संयम, सम्बन्ध, संकीर्ण, समग्र।
21. अपि – निश्चय, और भी – अपितु, अपिधान, अपिहित, अपिबद्ध, अपिवृत्त।
22. सु – अच्छा, अधिक, सरल – सुलेख, सुयश, सुपुत्र, सुयोग, सुगन्ध, सुगति, सुबोध, सुपुत्र, सुकन्या, सुफल, सुकाल, सुकर्म, सुगम, सुकर, सुदिन, सुलभ, सुमन, सुशील, सुविचार, सुमंत्र, सुनार, स्वागत, सुदूर, सुदृढ़, सुनैना, सुरक्षा, सुमति, सुभाष, सुरेखा, सुनीता, सुलक्षणा, सुपारी, सुचारु, सुपुत्री।

## 2. हिन्दी के उपसर्ग

उपसर्ग – अर्थ – उदाहरण

- अ – रहित, निषेध – अचेतन, अजान, अथाह, असाध्य, अकाट्य, अटल, अलग, अछूत, अभागा, अमर, अज्ञान, अमोल, अमर्त्य, अधर्म, अकाल, अतुल, अतल, अरुचि, अवैतनिक, अक्षत, अजीर्ण, अपथ्य, अचिर, अजर, अनाम, अजन्मा, अकारण, अहित, अहर्ता।
- अन – अभाव, निषेध – अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित, अनसुनी, अनकही, अनहोनी, अनदेखी, अनमना, अनखाया, अनचाहा, अनसुना।
- अध – आधा – अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधकचरा।
- आप – स्वयं – आपबीती, आपकाज, आपकही, आपदेखी, आपसुनी, आपकर, आपनिधि।
- उ – उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उभार।
- उन – एक कम – उन्नीस, उनतीस, उनचालीस, उनचास, उनसठ, उनहत्तर, उनासी।
- औ – हीन, निषेध – औगुण, औसर, औघड़, औघट, औरस।
- क – बुरा – कपूत, कलंक, कठोर, कसूर, कमर, कमाल, कपास, कगार, कजरा, कमरा, कजली, कचरा।
- का – बुरा – कायर, कापुरुष, काजल, कातर, कातिल, कातना, कायम, काफिर।
- कु – बुरा, हीन – कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुपथ, कुगति, कुमति, कुकृत्य, कुविचार, कुपात्र, कुसंग, कुसंगति, कुयोग, कुमाता, कुचाल, कुचक्र, कुरीति, कुप्रबन्ध।
- चौ – चार – चौराहा, चौपाल, चौपड़, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौसर, चौपाई, चौमुखा, चौकोर, चौगुना, चौबीस, चौखट, चौतरफा।
- ति – तीन – तिराहा, तिकोना, तिरंगा, तिपाई, तिमाही, तिगुनी, तिकड़ी।
- दु – दो, बुरा – दुमुँहा, दुबला, दुर्गा, दुलती, दुनाली, दुराहा, दुकाल, दुभाषिया, दुशाला, दुलार, दुधारू, दुपहिया।
- नाना – विविध – नानाप्रकार, नानारूप, नानाजाति।
- नि – अभाव – निकम्मा, निहत्था, निठल्ला, निडर, निवास, निदान।
- पच – पाँच – पचरंगा, पचमेल, पचकूटा।
- पर – दूसरा – परकाज, परदेश, परकोटा, परहित, परदेसी, परजीवी, परपुरुष, परनिंदा, पराधीन, परोपकार।
- बहु – ज्यादा – बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुधा, बहुभुज, बहुब्रीहि।
- बिन – बिना – बिनखाया, बिनब्याहा, बिनबोया, बिनचाहा, बिनजाना, बिनदेखा, बिनबुलाया, बिनसोचा।
- भर – पूरा – भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरतार, भरमार, भरपाई।
- स – सहित – सपूत, सफल, सबल, सजग, सचेत, सकाम, ससम्मान, सप्रेम, सरस, सघन, सजीव, सजग, सकुशल।
- सम – समान – समतल, समदर्शी, समकक्ष, समकोण, समबाहु, समरस, समकालीन, समवर्ती, सममित।

## 3. विदेशी उपसर्ग

हिन्दी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। विशेष रूप से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कई उपसर्ग अपनाये जाते हैं। इनमें से कतिपय इस प्रकार हैं—  
(क) उर्दू-फारसी के उपसर्ग –

- अल – निश्चित – अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलहदा, अलबेला, अलमस्त।
- कम – थोड़ा, हीन – कमबख्त, कमजोर, कमसिन, कमकीमत, कमअवल, कमखर्च।
- खुश – प्रसन्न, अच्छा – खुशबू, खुशदिल, खुशमिजाज, खुशनुमा, खुशहाल, खुशानीब, खुशकिस्मत, खुशखबरी।
- गैर – निषेध, रहित – गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरकौम, गैरमद, गैरसरकारी, गैरवाजिब, गैरजिम्मेदार।
- दर – में – दरअसल, दरकार, दरमियान, दरबदर, दरहकीकत, दरबार, दरखास्त, दरकिनार, दरगुजर।
- ना – नहीं – नालायक, नापसंद, नामुमकिन, नाकाम, नाबालिग, नाराज, नादान, नाचीज, नागवार, नाखुश, नासमझ, नापाक, नाईसाफ।
- बा – अनुसार, साथ – बामौका, बाकायदा, बाइज्जत, बामुलायजा, बाअदब, बादल, बादाम।
- बद – बुरा – बदनाम, बदमाश, बदचलन, बदहजमी, बदबू, बदतमीज, बदहवास, बदसूरत, बदईतजाम, बदकिस्मत, बदरंग, बदहाल।

- बे – बिना, रहित – बेईमान, बेचारा, बेअक्ल, बेहिसाब, बेमिसाल, बेहाल, बेवकूफ, बेदाग, बेकसूर, बेपरवाह, बेकार, बेकाम, बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेचैन, बेशुमार, बेहोश, बेइज्जत, बेरहम, बेसहारा, बेरोजगार, बेवक्त, बेकरार, बेअसर।
- ला – परे, बिना – लापरवाह, लाचार, लावारिस, लापता, लाजवाब, लाइलाज।
- सर – मुख्य – सरकार, सरदार, सरपंच, सरहद, सरनाम, सरफरोश।
- हम – साथ, समान – हमदर्दी, हमराज, हमदम, हमवतन, हमराह, हमदर्द, हमउम्र, हमसफर, हमशक्ल, हमजोली, हमराही, हमपेशा।
- हर – प्रत्येक – हरदिन, हरएक, हरसाल, हरदम, हररोज, हरबात, हरचीज, हरबार, हरवक्त, हरघड़ी, हरहाल, हरकोई, हरतरफ।
- ब – सहित – बखूबी, बतौर, बशर्त, बतर्ज, बकौल, बदौलत, बमुश्किल, बदस्तूर, बगैर, बनाम।
- बिला – बिना – बिलाकसूर, बिलावजह।
- बेश – अत्यधिक – बेशकीमती, बेशकीमत।
- नेक – भला – नेकराह, नेकदिल, नेकनाम।
- ऐन – ठीक – ठीक – ऐनवक्त, ऐनजगह, ऐनमौकै।

(ख) अंग्रेजी के उपसर्ग –

- सब – छोटा – सब रजिस्ट्रार, सब इन्स्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज।
- हैड – प्रमुख – हैडमास्टर, हैडऑफिस, हैडकांस्टेबिल।
- एक्स – मुक्त – एक्सप्रेस, एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमीश्रर, एक्स स्टूडेंट।
- हाफ – आधा – हाफटिकट, हाफरेट, हाफकमीज, हाफपेन्ट।
- को – सहित – को-ऑपरेटिव, को-ऑपरेशन, को-स्टार।
- डिप्टी – स्थानापन्न प्रतिनिधि – डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार।
- वाइस – उप – वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसीडेंट।
- जनरल – सामान्य – जनरल मैनेजर, जनरल इन्च्योरेंस।
- चीफ – मुख्य – चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी।

## 4. उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय

उपर्युक्त उपसर्गों के अतिरिक्त हिन्दी में संस्कृत के कुछ अव्यय, विशेषण और शब्दांश भी उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे –

- अ – निषेध – अप्राकृतिक, अकृत्रिम, अधर्म, अनाथ, अपूर्ण, अभाव, अमूल्य।
- अधः – नीचे – अधःपतन, अधोगति, अधोमुख।
- अन् – निषेध – अनन्त, अनादि, अनागत, अनर्थ।
- अन्तर/अन्तः – भीतर – अन्तःकरण, अन्तःप्रान्तीय, अन्तर्गत, अन्तरात्मा, अन्तर्धान, अन्तर्दशा, अन्तर्यामी, अन्तरिक्ष, अन्तर्मन, अन्तर्ज्ञान, अन्तर्देशीय, अन्तर्द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रीय।
- अमा – अमावस्या, अमात्य।
- अलम् – बहुत, काफी – अलंकरण, अलंकृत, अलंकार।
- आत्म – स्वयं – आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मानुभूति, आत्महत्या, आत्मज, आत्मश्लाघा, आत्मसमर्पण, आत्मोत्सर्ग, आत्मज्ञान, आत्मसात्, आत्मविश्वास।
- आविर/आविः – प्रकट – आविर्भाव, आविर्भूत।
- आविष्/आविः – आविष्कार, आविष्कृत।
- इति – अन्त, ऐसा – इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त, इतिवार्ता।
- चिर – बहुत – चिरकाल, चिरन्तन, चिरायु, चिरंजीव, चिरस्थायी, चिरपरिचित, चिरप्रतीक्षित, चिरस्मरणीय, चिरनिद्रा।
- तत् – उस समय – तल्लीन, तन्मय, तद्धित, तदनन्तर, तत्काल, तत्क्षण, तत्पश्चात्, तत्सम, तत्कालीन, तदुपरान्त, तत्पर।
- तिरस्/तिरः – हीन, बुरा – तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरोभाव, तिरोहित, तिरोधान।
- प्राक् – पहले – प्राक्कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग्वैदिक, प्राक्तन, प्राक्कृत।
- न – अभाव – नकुल, नपुंसक, नास्तिक, नग।
- प्रातः – सुबह – प्रातःकाल, प्रातःवन्दना, प्रातःस्मरणीय।
- प्रादुर – प्रकट – प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत।
- पुनर्/पुनः – फिर – पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पुनर्विचार, पुनरुद्धार, पुनर्वास, पुनर्मूल्यांकन, पुनरीक्षण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण।
- पुरा – प्राचीन – पुरातन, पुरातत्त्व, पुरापथ, पुराण, पुरावशेष, पुराचीन।
- पुरः – पुरोहित, पुरोध, पुरोगामी।
- पुरस् – आगे – पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरस्कृत।
- पूर्व – पहले – पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न, पूर्वानुमान, पूर्वनिश्चित, पूर्वाभिमुखी, पूर्वापेक्षा, पूर्वोक्त।
- बहिर/बहिः – बाहर – बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्द्वन्द्व, बहिर्मुखी, बहिर्गमन।
- बहिष्/बहिः – बाहर – बहिष्कार, बहिष्कृत।
- स – सहित – सजल, सपत्नीक, सहर्ष, सपरिवार, सादर, सकुशल, सहित, सोदेश्य।
- सत् – सम्मान – सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सत्धर्म, सत्संग, सत्कार्य, सच्चरित्र।
- स्व – अपना – स्वनाम, स्वजाति, स्वशासन, स्वाभिमान, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वधर्म, स्वभाव, स्वार्थ, स्वहित, स्वजन, स्वच्छा।
- स्वयं – अपने आप – स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणि, स्वयंसिद्ध।
- सह – साथ – सहाय्यायी, सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहचर, सहयोग, सहकार, सहयात्री, सहानुभूति।

कुछ अन्य शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं –

- अद्य – अद्यतन, अद्यावधि।
- आवा – आवागमन, आवाजाही।
- उद् – उद्गम, उद्गार।
- कत् – कदम्ब, कदाचार, कदर्थ, कदश्च, कदाकार।
- काम – कामयाब, कामकाज, कामचोर, कामचलाऊ, कामदेव, कामधेनु, कामशास्त्र, कामांध, कामाक्षी, कामाख्या, कामाग्नि, कामातुर, कामायनी, कामोन्माद।
- बर – बरदाश्त, बरबाद, बरकरार, बरखास्त।
- भू – भूगोल, भूधर, भूचर, भूतल, भूकम्प, भूगर्भ, भूदेव, भूपति, भूमंडल, भूमध्यसागर, भूख, भूखा, भूस्वामी, भूपालक।
- स्वी – स्वीकार्य, स्वीकार, स्वीकृत।
- मंद – मंदबुद्धि, मंदगति, मंदाग्नि, मंदभाग्य।
- मत – मतदान, मतपत्र, मतदाता, मतवाला, मतगणना, मतसंग्रह, मतभेद, मताधिकार, मतावलम्बी।
- मद – मदमाता, मदमस्त, मदकारी, मदमत्त।
- मधु – मधुकर, मधुमक्खी, मधुसूदन, मधुबन, मधुबाला, मधुमेह, मधुशाला, मधुस्वर।
- मन – मनचला, मनचाहा, मनमोहन, मनभाया, मनहर, मनभावन, मनगढ़ंत, मनमुटाव, मनमौजी, मनमानी, मनसब।
- मरु – मरुभूमि, मरुस्थल, मरुप्रदेश, मरुधर।
- महा – महाभियोग, महाभारत, महायज्ञ, महायान, महारथी, महाराज, महाराष्ट्र, महासागर, महामंत्री, महाप्राण, महाकाल, महावीर।
- मान – मानचित्र, मानदंड, मानहानि, मानदेय, मानसून, मानसरोवर।
- मित – मितभाषी, मितव्यय, मितव्ययी, मितहार।
- मुँह – मुँहफट, मुँहबोला, मुँहमाँगा, मुँहदिखाई, मुँहतोड़।

- मूल – मूलभूत, मूलधन, मूलमंत्र, मूलग्रन्थ, मूलबंध।
- यथा – यथाशक्ति, यथासंभव, यथासमय, यथावधि, यथाशीघ्र, यथास्थान, यथास्थिति।
- रंग – रंगमंच, रंगशाला, रंगरूप, रंगदंग, रंगरेज, रंगरूट, रंगरसिया।
- रक्त – रक्ततुण्ड, रक्तवर्ण, रक्तस्त्राव, रक्तकंठ।
- रफू – रफूचक्कर, रफूगर।
- लेखा – लेखाकार, लेखाकर्म, लेखापाल, लेखाचित्र, लेखांकन।
- लोक – लोकगीत, लोककथा, लोकाचार, लोकनाथ, लोकपाल, लोकायुक्त, लोकहित, लोकतंत्र।
- वज्र – वज्रपाणि, वज्रदंत, वज्रांग, वज्रासन, वज्रायुध।
- वर्ग – वर्गमूल, वर्गफल, वर्गाकार।
- सार्व – सार्वजनिक, सार्वअन्तर, सार्वभौम, सार्वकालिक, सार्वदेशिक।

## प्रत्यय

जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अन्त में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करके पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कभी-कभी प्रत्यय लगाने पर भी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे— बाल-बालक, मृदु-मृदुल।

प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती बल्कि शब्द के अन्तिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाती है, व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे— लोहा+आर = लुहार, नाटक+कार = नाटककार।

शब्द-रचना में प्रत्यय कहीं पर अपूर्ण क्रिया, कहीं पर सम्बन्धवाचक और कहीं पर भाववाचक के लिये प्रयुक्त होते हैं। जैसे— मानव+ईय = मानवीय। लघु+ता = लघुता। बूढ़ा+आपा = बुढ़ापा।

हिन्दी में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं—

- (1) संस्कृत के प्रत्यय,
- (2) हिन्दी के प्रत्यय तथा
- (3) विदेशी भाषा के प्रत्यय।

## 1. संस्कृत के प्रत्यय

संस्कृत व्याकरण में शब्दों और मूल धातुओं से जो प्रत्यय जुड़ते हैं, वे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं –

### 1. कृदन्त प्रत्यय –

जो प्रत्यय मूल धातुओं अर्थात् क्रिया पद के मूल स्वरूप के अन्त में जुड़कर नये शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदन्त या कृत् प्रत्यय कहते हैं। धातु या क्रिया के अन्त में जुड़ने से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। कृदन्त प्रत्यय के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं –

(1) कर्तृवाचक कृदन्त – वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, कर्तृवाचक कृदन्त कहलाते हैं। जैसे –

प्रत्यय – शब्द-रूप

• तृ (ता) – कर्ता, नेता, भ्राता, पिता, कृत, दाता, ध्याता, ज्ञाता।

• अक – पाठक, लेखक, पालक, विचारक, गायक।

(2) विशेषणवाचक कृदन्त – जो प्रत्यय क्रियापद से विशेषण शब्द की रचना करते हैं, विशेषणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

• त – आगत, विगत, विश्रुत, कृत।

• तव्य – कर्तव्य, गन्तव्य, ध्यातव्य।

• य – नृत्य, पूज्य, स्तुत्य, खाद्य।

• अनीय – पठनीय, पूजनीय, स्मरणीय, उल्लेखनीय, शोचनीय।

(3) भाववाचक कृदन्त – वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक कृदन्त कहलाते हैं। जैसे –

• अन – लेखन, पठन, हवन, गमन।

• ति – गति, मति, रति।

• अ – जय, लाभ, लेख, विचार।

### 2. तद्धित प्रत्यय –

जो प्रत्यय क्रिया पदों (धातुओं) के अतिरिक्त मूल संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अन्त में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे— गुरु, मनुष्य, चतुर, कवि शब्दों में क्रमशः त्व, ता, तर, ता प्रत्यय जोड़ने पर गुरुत्व, मनुष्यता, चतुरतर, कविता शब्द बनते हैं।

तद्धित प्रत्यय के छः भेद हैं –

(1) भाववाचक तद्धित प्रत्यय – भाववाचक तद्धित से भाव प्रकट होता है। इसमें प्रत्यय लगने पर कहीं-कहीं पर आदि-स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे –

प्रत्यय – शब्द-रूप

• अव – लाघव, गौरव, पाटव।

• त्व – महत्त्व, गुरुत्व, लघुत्व।

• ता – लघुता, गुरुता, मनुष्यता, समता, कविता।

• इमा – महिमा, गरिमा, लधिमा, लालिमा।

• य – पांडित्य, धैर्य, चातुर्य, माधुर्य, सौन्दर्य।

(2) सम्बन्धवाचक तद्धित प्रत्यय – सम्बन्धवाचक तद्धित प्रत्यय से सम्बन्ध का बोध होता है। इसमें भी कहीं-कहीं पर आदि-स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे –

• अ – शैव, वैष्णव, तैल, पार्थिव।

• इक – लौकिक, धार्मिक, वार्षिक, ऐतिहासिक।

• इत – पीडित, प्रचलित, दुःखित, मोहित।

• इम – स्वर्णिम, अन्तिम, रवित्तम।

• इल – जटिल, फेनिल, बोझिल, पंकिल।

• ईय – भारतीय, प्रान्तीय, नाटकीय, भवदीय।

• य – ग्राम्य, काम्य, हास्य, भव्य।

(3) अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय – इनसे अपत्य अर्थात् सन्तान या वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति का बोध होता है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में भी कहीं-कहीं पर आदि-स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे –

• अ – पार्थ, पाण्डव, माधव, राघव, भार्गव।

• इ – दाशरथि, मारुति, सौमित्र।

• य – गालव्य, पौलस्त्य, शाक्य, गार्ग्य।

• एय – वाष्पेय, कौन्तेय, गांगेय, राधेय।

- (4) पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय – इसमें संख्या की पूर्णता का बोध होता है। जैसे –
- म – प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, दशम।
  - थ/ठ – चतुर्थ, षष्ठ।
  - तीय – द्वितीय, तृतीय।
- (5) तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय – दो या दो से अधिक वस्तुओं में श्रेष्ठता बतलाने के लिए तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय लगता है। जैसे –
- तर – अधिकतर, गुरुतर, लघुतर।
  - तम – सुन्दरतम, अधिकतम, लघुतम।
  - ईय – गरीय, वरीय, लघीय।
  - इष्ठ – गरिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ।
- (6) गुणवाचक तद्धित प्रत्यय – गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से संज्ञा शब्द गुणवाची बन जाते हैं। जैसे –
- वान् – धनवान्, विद्वान्, बलवान्।
  - मान् – बुद्धिमान्, शक्तिमान्, गतिमान्, आयुष्मान्।
  - त्य – पाश्चात्य, पौरात्य, दक्षिणात्य।
  - आलु – कृपालु, दयालु, शंकालु।
  - ई – विद्यार्थी, क्रोधी, धनी, लोभी, गुणी।

## 2. हिन्दी के प्रत्यय

संस्कृत की तरह ही हिन्दी के भी अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। ये प्रत्यय यद्यपि कृदन्त और तद्धित की तरह जुड़ते हैं, परन्तु मूल शब्द हिन्दी के तद्भव या देशज होते हैं। हिन्दी के सभी प्रत्ययों को निम्न वर्गों में सम्मिलित किया जाता है—

(1) कर्तृवाचक – जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, वे कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- प्रत्यय – शब्द-रूप
- आर – सुनार, लोहार, चमार, कुम्हार।
  - ओरा – चटोरा, खदोरा, नदोरा।
  - इया – दुखिया, सुखिया, रसिया, गडरिया।
  - इयल – मरियल, सड़ियल, दड़ियल।
  - एरा – सपेरा, लुटेरा, कसेरा, लखेरा।
  - वाला – घरवाला, तौंगेवाला, झाड़ुवाला, मोटरवाला।
  - वैया (ऐया) – गवैया, नचैया, रखवैया, खिवैया।
  - हारा – लकड़हारा, पनिहारा।
  - हार – राखनहार, चाखनहार।
  - अकड़ – भुलकड़, घुमकड़, पियकड़।
  - आकू – लड़ाकू।
  - आड़ी – खिलाड़ी।
  - ओड़ा – भगोड़ा।

(2) भाववाचक – जिनसे किसी भाव का बोध होता है, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- आ – प्यासा, भूखा, रुखा, लेखा।
- आई – मिठाई, रंगाई, सिलाई, भलाई।
- आका – धमाका, धड़ाका, भड़ाका।
- आपा – मुटापा, बुढ़ापा, रणडापा।
- आहत – चिकनाहत, कड़वाहत, घबड़ाहत, गरमाहत।
- आस – मिठास, खटास, भड़ास।
- ई – गर्मी, सदी, मजदूरी, पहाड़ी, गरीबी, खेती।
- पन – लड़कपन, बचपन, गँवारपन।

(3) सम्बन्धवाचक – जिनसे सम्बन्ध का भाव व्यक्त होता है, वे सम्बन्धवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- आई – बहनोई, ननदोई, रसोई।
- आड़ी – खिलाड़ी, पहाड़ी, अनाड़ी।
- एरा – चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा।
- एड़ी – भँगेड़ी, गँजेड़ी, नशेड़ी।
- आरी – लुहारी, सुनारी, मनिहारी।
- आल – ननिहाल, ससुराल।

(4) लघुतावाचक – जिनसे लघुता या न्यूनता का बोध होता है, वे लघुतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- ई – रस्सी, कटोरी, टोकरी, ढोलकी।
- इया – खटिया, लुटिया, चुटिया, डिबिया, पुड़िया।
- डा – मुखड़ा, दुखड़ा, चमड़ा।
- डी – टुकड़ी, पगड़ी, बछड़ी।
- ओला – खटोला, मझोला, सँपोला।

(5) गणनावाचक प्रत्यय – जिनसे गणनावाचक संख्या का बोध है, वे गणनावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- था – चौथा।
- रा – दूसरा, तीसरा।
- ला – पहला।
- वाँ – पाँचवाँ, दसवाँ, सातवाँ।
- हरा – इकहरा, दुहरा, तिहरा।

(6) सादृश्यवाचक प्रत्यय – जिनसे सादृश्य या समता का बोध होता है, उन्हें सादृश्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे –

- सा – मुझ-सा, तुझ-सा, नीला-सा, चाँद-सा, गुलाब-सा।
- हरा – दुहरा, तिहरा, चौहरा।
- हला – सुनहला, रूपहला।

(7) गुणवाचक प्रत्यय – जिनसे किसी गुण का बोध होता है, वे गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- आ – मीठा, ठंडा, प्यासा, भूखा, प्यारा।
- ईला – लचीला, गँठीला, सजीला, रंगीला, चमकीला, रसीला।
- ऐला – मटमैला, कषैला, विषैला।
- आऊ – बटाऊ, पंडिताऊ, नामधराऊ, खटाऊ।
- वन्त – कलावन्त, कुलवन्त, दयावन्त।
- ता – मूर्खता, लघुता, कठोरता, मूढ़ता।

(8) स्थानवाचक – जिनसे स्थान का बोध होता है, वे स्थानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे –

- ई – पंजाबी, गुजराती, मराठी, अजमेरी, बीकानेरी, बनारसी, जयपुरी।
- इया – अमृतसरिया, भोजपुरिया, जयपुरिया, जालिमपुरिया।
- आना – हरियाना, राजपूताना, तेलंगाना।
- वी – हरियाणवी, देहलवी।

### 3. विदेशी प्रत्यय

हिन्दी में उर्दू के ऐसे प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जो मूल रूप से अरबी और फारसी भाषा से अपनाये गये हैं। जैसे –

- आबाद – अहमदाबाद, इलाहाबाद।
- खाना – दवाखाना, छापाखाना।
- गर – जादगर, बाजीगर, शोरगर।
- ईचा – बगीचा, गलीचा।
- ची – खजानची, मशालची, तोपची।
- दार – मालदार, दूकानदार, जमींदार।
- दान – कलमदान, पीकदान, पायदान।
- वान – कोचवान, बागवान।
- बाज – नशेबाज, दगाबाज।
- मन्द – अक्लमन्द, भरोसेमन्द।
- नाक – दर्दनाक, शर्मनाक।
- गीर – राहगीर, जहाँगीर।
- गी – दीवानगी, ताजगी।
- गार – यादगार, रोजगार।

### हिन्दी में प्रयुक्त प्रमुख प्रत्यय व उनसे बने प्रमुख शब्द :-

- अ – शैव, वैष्णव, तैल, पार्थिव, मानव, पाण्डव, वासुदेव, लूट, मार, तोल, लेख, पार्थ, दानव, यादव, भार्गव, माधव, जय, लाभ, विचार, चाल, लाघव, शाक्त, मेल, बौद्ध।
- अक – चालक, पावक, पाठक, लेखक, पालक, विचारक, खटक, धावक, गायक, नायक, दायक।
- अक्कड़ – भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, रुअक्कड़, फक्कड़, लक्कड़।
- अंत – गढ़त, लड़त, भिड़त, रटत, लिपटत, कूदन्त, फलंत।
- अन्तर – रूपान्तर, मतान्तर, मध्यान्तर, समानान्तर, देशांतर, भाषांतर।
- अतीत – कालातीत, आशातीत, गुणातीत, स्मरणातीत।
- अंदाज – तीरंदाज, गोलंदाज, बकंदाज, बेअंदाज।
- अंध – सड़ांध, मदांध, धर्मांध, जन्मांध, दोषांध।
- अधीन – कर्माधीन, स्वाधीन, पराधीन, देवाधीन, विचाराधीन, कृपाधीन, निर्णयाधीन, लेखकाधीन, प्रकाशकाधीन।
- अन – लेखन, पठन, वादन, गायन, हवन, गमन, झाड़न, जूठन, ँठन, चुभन, मंथन, वंदन, मनन, चिंतन, ढक्कन, मरण, चलन, जीवन।
- अना – भावना, कामना, प्रार्थना।
- अनीय – तुलनीय, पठनीय, दर्शनीय।
- अन्वित – क्रोधान्वित, दोषान्वित, लाभान्वित, भयान्वित, क्रियान्वित, गुणान्वित।
- अन्वय – पदान्वय, खंडान्वय।
- अयन – रामायण, नारायण, अन्वयन।
- आ – प्यासा, लेखा, फेरा, जोड़ा, प्रिया, मेला, ठंडा, भूखा, छाता, छत्रा, हर्जा, खर्चा, पीड़ा, रक्षा, झगड़ा, सूखा, रुखा, अटका, भटका, मटका, भूला, बैठा, जागा, पढ़ा, भागा, नाचा, पूजा, मैला, प्यारा, घना, झूला, ठेला, घेरा, मीठा।
- आइन – ठकुराइन, पंडिताइन, मुंशियाइन।
- आई – लड़ाई, चढ़ाई, भिड़ाई, लिखाई, पिसाई, दिखाई, पंडिताई, भलाई, बुराई, अच्छाई, बुनाई, कढ़ाई, सिँचाई, पढ़ाई, उतराई।
- आऊ – दिखाऊ, टिकाऊ, बटाऊ, पंडिताऊ, नामधराऊ, खटाऊ, चलाऊ, उपजाऊ, बिकाऊ, खाऊ, जलाऊ, कमाऊ, टरकाऊ, उठाऊ।
- आक – लड़ाक, तैराक, चालाक, खटाक, सटाक, तड़ाक, चटाक।
- आका – धमाका, धड़ाका, भड़ाका, लड़ाका, फटाका, चटाका, खटाका, तड़ाका, इलाका।
- आकू – लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, चाकू।
- आकुल – भयाकुल, व्याकुल।
- आटा – सत्राटा, खरटाटा, फरटाटा, घर्टाटा, झपाटा, थरटाटा।
- आड़ी – कबाड़ी, पहाड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी।
- आदय – धनादय, गुणादय।
- आतुर – प्रेमातुर, रोगातुर, कामातुर, चिँतातुर, भयातुर।
- आन – उड़ान, पठान, चढ़ान, नीचान, उठान, लदान, मिलान, थकान, मुस्कान।
- आना – नजराना, हर्जाना, घराना, तेलंगाना, राजपूताना, मर्दाना, जुर्माना, मेहनताना, रोजाना, सालाना।
- आनी – देवरानी, जेठानी, सेठानी, गुरुआनी, इंद्राणी, नौकरानी, रूहानी, मेहतरानी, पंडितानी।
- आप – मिलाप, विलाप, जलाप, संताप।
- आपा – बुढ़ापा, मुटापा, रणडापा, बहिनापा, जलापा, पुजापा, अपनापा।
- आब – गुलाब, शराब, शबाब, कबाब, नवाब, जवाब, जनाब, हिसाब, किताब।
- आबाद – नाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, शाहजहाँनाबाद।
- आमह – पितामह, मातामह।
- आयत – त्रिगुणायत, पंचायत, बहुतायत, अपनायत, लोकायत, टीकायत, किफायत, रियायत।
- आयन – दांडयायन, कात्यायन, वात्स्यायन, सांस्कृत्यायन।
- आर – कुम्हार, सुनार, लुहार, चमार, सुथार, कहार, गँवार, नशार।
- आरा – बनजारा, निबटारा, छुटकारा, हत्यारा, घसियारा, भटियारा।
- आरी – पुजारी, सुनारी, लुहारी, मनिहारी, कोठारी, बुहारी, भिखारी, जुआरी।
- आरू – दुधारू, गँवारू, बाजारू।
- आल – ससुराल, ननिहाल, घड़ियाल, कंगाल, बंगाल, टकसाल।
- आला – शिवाला, पनाला, परनाला, दिवाला, उजाला, रसाला, मसाला।
- आलू – ईर्ष्यालू, कृपालू, दयालू।
- आलू – झगड़ालू, लजालू, रतालू, सियालू।
- आव – घेराव, बहाव, लगाव, दूराव, छिपाव, सज़ाव, जमाव, ठहराव, घ्रमाव, पड़ाव, बिलाव।

- आवर – दिलावर, दस्तावर, बख्तावर, जोरावर, जिनावर।
- आवट – लिखावट, थकावट, रुकावट, बनावट, तरावट, दिखावट, सजावट, घिसावट।
- आवना – सुहावना, लुभावना, डरावना, भावना।
- आवा – भुलावा, बुलावा, चढ़ावा, छलावा, पछतावा, दिखावा, बहकावा, पहनावा।
- आहट – कड़वाहट, चिकनाहट, घबराहट, सरसराहट, गरमाहट, टकराहट, थरथराहट, जगमगाहट, चिरपिराहट, बिलबिलाहट, गुर्राहट, तड़फड़ाहट।
- आस – खटास, मिठास, प्यास, बिँदास, भड़ास, रुआँस, निकास, हास, नीचास, पलास।
- आसा – कुहासा, मुँहासा, पुंडासा, पासा, दिलासा।
- आस्पद – घृणास्पद, विवादास्पद, संदेहास्पद, उपहासास्पद, हास्यास्पद।
- ओई – बहनाई, ननदाई, रसोई, कन्दोई।
- ओड़ा – भगोड़ा, हँसोड़ा, थोड़ा।
- ओरा – चटोरा, कटोरा, खदोरा, नदोरा, ढिँढोरा।
- ओला – खटोला, मँझोला, बतोला, बिचोला, फफोला, सँपोला, पिछोला।
- औटा – बिलौटा, हिरनौटा, पहिलौटा, बिनौटा।
- औता – फिरौता, समझौता, कठौता।
- औती – चुनौती, बपौती, फिरौती, कटौती, कठौती, मनौती।
- औना – घिनौना, खिलौना, बिछौना, सलौना, डिठौना।
- औनी – घिनौनी, बिछौनी, सलौनी।
- इंदा – परिंदा, चुनिंदा, शर्मिंदा, बारिंदा, जिन्दा।
- इ – दाशरथि, मारुति, राघवि, वारि, सारथि, वाल्मीकि।
- इक – मानसिक, मार्मिक, पारिश्रमिक, व्यावहारिक, ऐतिहासिक, पार्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, औपचारिक, भौतिक, लौकिक, नैतिक, वैदिक, प्रायोगिक, वार्षिक, मासिक, दैनिक, धार्मिक, दैहिक, प्रासंगिक, नागरिक, दैविक, भौगोलिक।
- इका – नायिका, पत्रिका, निहारिका, लतिका, बालिका, कलिका, लेखिका, सेविका, प्रेमिका।
- इकी – वानिकी, मानविकी, यांत्रिकी, सांख्यिकी, भौतिकी, उद्यानिकी।
- इत – लिखित, कथित, चिंतित, याचित, खंडित, पोषित, फलित, द्रवित, कलंकित, हर्षित, अंकित, शोभित, पीडित, कटंकित, रचित, चलित, तड़ित, उदित, गलित, ललित, वर्जित, पठित, बाधित, रहित, सहित।
- इतर – आयोजनेतर, अध्ययनेतर, सचिवालयेतर।
- इत्य – लालित्य, आदित्य, पांडित्य, साहित्य, नित्य।
- इन – मालिन, कठिन, बाधिन, मालकिन, मलिन, अधीन, सुनारिन, चमारिन, पुजारिन, कहारिन।
- इनी – भुजांगिनी, यक्षिणी, सरोजिनी, वाहिनी, हथिनी, मतवालिनी।
- इम – अग्रिम, रवित्तम, पश्चिम, अंतिम, स्वर्णिम।
- इमा – लालिमा, गरिमा, लघिमा, पूर्णिमा, हरितिमा, मधुरिमा, अणिमा, नीलिमा, महिमा।
- इयत – इंसानियत, कैफियत, माहियत, हैवानित, खासियत, खैरियत।
- इयल – मरियल, ददियल, चुटियल, सड़ियल, अड़ियल।
- इया – लठिया, बिटिया, चुटिया, डिबिया, खटिया, लुटिया, मुखिया, चुहिया, बंदरिया, कुतिया, दुखिया, सुखिया, आढ़तिया, रसोइया, रसिया, पटिया, चिड़िया, बुढ़िया, अमिया, गडरिया, मटकिया, लकुटिया, घटिया, रेशमिया, मजाकिया, सुरतिया।
- इल – पंकिल, रोमिल, कुटिल, जटिल, धूमिल, तुंडिल, फेनिल, बोझिल, तमिल, कातिल।
- इश – मालिश, फरमाइश, पैदाइश, पैमाइश, आजमाइश, परवरिश, कोशिश, रंजिश, साजिश, नालिश, कशिश, तपितश, समझाइश।
- इस्तान – कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, नखलिस्तान, कजाकिस्तान।
- इष्णु – सहिष्णु, वर्धिष्णु, प्रभाविष्णु।
- इष्ट – विशिष्ट, स्वादिष्ट, प्रविष्ट।
- इष्ठ – घनिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ।
- ई – गगरी, खुशी, दुःखी, भेदी, दोस्ती, चोरी, सर्दी, गर्मी, पार्वती, नरमी, टोकरी, झंडी, ढोलकी, लंगोटी, भारी, गुलाबी, हरी, सुखी, बिक्री, मंडली, द्रोपदी, वैदेही, बोली, हँसी, रेती, खेती, बुहारी, धमकी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, जयपुरी, मद्रासी, पहाड़ी, देशी, सुन्दरी, ब्राह्मणी, गुणी, विद्यार्थी, क्रोधी, लालची, लोभी, पाखण्डी, विदुषी, विदेशी, अकेली, सखी, साखी, अलबेली, सरकारी, तन्दुरी, सिन्दुरी, किशोरी, हेराफेरी, कामचोरी।
- ईंचा – बगीचा, गलीचा, सड़ंचा।
- ईन – प्रवीण, शौकीन, प्राचीन, कुलीन, शालीन, नमकीन, रंगीन, ग्रामीण, नवीन, संगीन, बीन, तारपीन, गमगीन, दूरबीन, मशीन, जमीन।
- ईना – कमीना, महीना, पशमीना, नगीना, मतिहीना, मदीना, जरीना।
- ईय – भारतीय, जातीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, भवदीय, पठनीय, पाणिनीय, शास्त्रीय, वायवीय, पूजनीय, वंदनीय, करणीय, राजकीय, देशीय।
- ईला – रसीला, जहरीला, पथरीला, कंकरीला, हठीला, रंगीला, गँठीला, शर्मीला, सुरीला, नुकीला, बफरीला, भड़कीला, नशीला, लचीला, सजीला, फुर्तीला।
- ईश – नदीश, कपीश, कवीश, गिरीश, महीश, हरीश, सतीश।
- उ – सिंधु, लघु, भानु, गुरु, अनु, भिक्षु, शिशु, , वधु, तनु, पितु, बुद्धु, शत्रु, आयु।
- उक – भावुक, कामुक, भिक्षुक, नाजुक।
- उवा/उआ – मछुआ, कछुआ, बबुआ, मनुआ, कलुआ, गेरुआ।
- उल – मातुल, पातुल।
- ऊ – झाड़ू, बाजारू, घरू, झँपू, पेटू, भौंपू, गँवारू, ढालू।
- ऊटा – कलुटा।
- ए – चले, फले, ढले, गले, मिले, खड़े, पड़े, डरे, मरे, हँसे, फँसे, जले, किले, काले, ठहरे, पहरे, रोये, चने, पहने, गहने, मेरे, तेरे, तुम्हारे, हमारे, सितारे, उनके, उसके, जिसके, बकरे, कचरे, लुटेरे, सुहावने, डरावने, झूले, प्यारे, घने, सूखे, मैले, थैले, बेटे, लेटे, आए, गए, छोटे, बड़े, फेरे, दूसरे।
- एड़ी – नशेड़ी, भंगेड़ी, गँजेड़ी।
- एय – गांगेय, आंगनेय, आंजनेय, पाथेय, काँतेय, वार्षेय, मार्कंडेय, कार्तिकेय, राधेय।
- एरा – लुटेरा, सपेरा, मौसेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, चितेरा, ठठेरा, कसेरा, लखेरा, भतेरा, कमेरा, बसेरा, सवेरा, अन्धेरा, बघेरा।
- एल – फुलेल, नकेल, ढकेल, गाँवड़ेल।
- एला – बधेला, अकेला, सौतेला, करेला, मेला, तबेला, ठेला, रेला।
- एत – साकेत, संकेत, अचेत, सचेत, पठेत।
- ऐत – लठैत, डकैत, लड़ैत, टिकैत, फिकैत।
- ऐया – बजैया, बजैया, रचैया, खिवैया, रखैया, कन्हैया, लगैया।
- ऐल – गुस्सेल, रखैल, खपरैल, मुँछैल, दँतैल, बिगड़ैल।
- ऐला – विषैला, कसैला, वनैला, मटैला, थनैला, मटमैला।
- क – बालक, सातक, दशक, अष्टक, अनुवादक, लिपिक, चालक, शतक, दीपक, पटक, झटक, लटक, खटक।
- कर – दिनकर, दिवाकर, रुचिकर, हितकर, प्रभाकर, सुखकर, प्रलयकर, भयंकर, पढ़कर, लिखकर, चलकर, सुनकर, पीकर, खाकर, उठकर, सोकर, धोकर, जाकर, आकर, रहकर, सहकर, गाकर, छानकर, समझकर, उलझकर, नाचकर, बजाकर, भूलकर, तड़पकर, सुनाकर, चलाकर, जलाकर, आनकर, गरजकर, लपककर, भरकर, डरकर।
- करण – सरलीकरण, स्पष्टीकरण, गैसीकरण, द्रवीकरण, पंजीकरण, धुवीकरण।
- कल्प – कुमारकल्प, काविकल्प, भूतकल्प, विद्वत्कल्प, कायाकल्प, संकल्प, विकल्प।
- कार – साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार, संगीतकार, काशतकार, शिल्पकार, ग्रंथकार, कलाकार, चर्मकार, स्वर्णकार, गीतकार, बलकार, बलात्कार, फनकार, फुँफकार,

हुँकार, छायाकार, कहानीकार, अंधकार, सरकार।

- का – गुटका, मटका, छिलका, टपका, छुटका, बड़का, कालका।
- की – बड़की, छुटकी, मटकी, टपकी, अटकी, पटकी।
- कीय – स्वकीय, परकीय, राजकीय, नाभिकीय, भौतिकीय, नारकीय, शासकीय।
- कोट – नगरकोट, पटानकोट, राजकोट, धूलकोट, अंदरकोट।
- कोटा – परकोटा।
- खाना – दवाखाना, तोपखाना, कारखाना, दौलतखाना, कैदखाना, मयखाना, छापाखाना, डाकखाना, कटखाना।
- खोर – मुफ्तखोर, आदमखोर, सूदखोर, जमाखोर, हरामखोर, चुगलखोर।
- ग – उरग, विहग, तुरग, खड़ग।
- गढ़ – जयगढ़, देवगढ़, रामगढ़, चित्तौड़गढ़, कुशलगढ़, कुम्भलगढ़, हनुमानगढ़, लक्ष्मणगढ़, डूंगरगढ़, राजगढ़, सुजानगढ़, किशनगढ़।
- गर – जादूगर, नीलगर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर, कामगर, शोरगर, उजागर।
- गाँव – चिरगाँव, गोरेगाँव, गुड़गाँव, जलगाँव।
- गा – तमगा, दुर्गा।
- गार – कामगार, यादगार, रोजगार, मददगार, खिदमतगार।
- गाह – ईदगाह, दरगाह, चरागाह, बंदरगाह, शिकारगाह।
- गी – मर्दानगी, जिंदगी, सादगी, एकबारगी, बानगी, दीवानगी, ताजगी।
- गीर – राहगीर, उठाईगीर, जहाँगीर।
- गीरी – कुलीगीरी, मुँशीगीरी, दादागीरी।
- गुना – दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँचगुना, सौगुना।
- ग्रस्त – रोगग्रस्त, तनावग्रस्त, चिन्ताग्रस्त, विवादग्रस्त, व्याधिग्रस्त, भयग्रस्त।
- घ्न – कृतघ्न, पापघ्न, मातृघ्न, वातघ्न।
- चर – जलचर, नभचर, निशाचर, थलचर, उभयचर, गोचर, खेचर।
- चा – देगचा, चमचा, खोमचा, पोमचा।
- चित् – कदाचित्, किंचित्, कश्चित्, प्रायश्चित्।
- ची – अफीमची, तोपची, बावरची, नकलची, खजांची, तबलची।
- ज – अंबुज, पयोज, जलज, वारिज, नीरज, अग्रज, अनुज, पंकज, आत्मज, सरोज, उरोज, धीरज, मनोज।
- जा – आत्मजा, गिरिजा, शैलजा, अर्कजा, भानजा, भतीजा, भूमिजा।
- जात – नवजात, जलजात, जन्मजात।
- जादा – शहजादा, रईसजादा, हरामजादा, नवाबजादा।
- ज्ञ – विशेषज्ञ, नीतिज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ।
- ठ – कर्मठ, जरठ, षष्ठ।
- डा – दुःखडा, मुखडा, पिछडा, टुकडा, बछडा, हिँजडा, कपडा, चमडा, लँगडा।
- डी – टुकडी, पगडी, बछडी, चमडी, दमडी, पंखुडी, अँतडी, टंगडी, लँगडी।
- त – आगत, विगत, विश्रुत, रंगत, संगत, चाहत, कृत, मिल्लत, गत, हत, व्यक्त, बचत, खपत, लिखत, पढ़त, बढ़त, घटत, आकृष्ट, तुष्ट, संतुष्ट (सम्+तुष्ट+त)।
- तन – अधुनातन, नूतन, पुरातन, सनातन।
- तर – अधिकतर, कमतर, कठिनतर, गुरुतर, ज्यादातर, दृढतर, लघुतर, वृहत्तर, उच्चतर, कुटिलतर, दृढतर, निम्नतर, निकटतर, महत्तर।
- तम – प्राचीनतम, नवीनतम, तीव्रतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, महत्तम, विशिष्टतम, अधिकतम, गुरुतम, दीर्घतम, निकटतम, न्यूनतम, लघुतम, वृहत्तम, सुंदरतम, उत्कृष्टतम।
- ता – श्रोता, वक्ता, दाता, ज्ञाता, सुंदरता, मधुरता, मानवता, महत्ता, बंधुता, दासता, खाता, पीता, डूबता, खेलता, महानता, रमता, चलता, प्रभुता, लघुता, गुरुता, समता, कविता, मनुष्यता, कर्ता, नेता, भ्राता, पिता, विधाता, मूर्खता, विद्वता, कठोरता, मुदुता, वीरता, उदारता।
- ति – गति, मति, पति, रति, शक्ति, भक्ति, कृति।
- ती – ज्यादती, कृती, ढलती, कमती, चलती, पढ़ती, फिरती, खाती, पीती, धरती, भरती, जागती, भागती, सोती, धोती, सती।
- तः – सामान्यतः, विशेषतः, मूलतः, अंशतः, अंततः, स्वतः, प्रातः, अतः।
- त्र – एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, नैत्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, चरित्र, क्षेत्र, पत्र, सत्र।
- त्व – महत्त्व, लघुत्व, स्त्रीत्व, नेतृत्व, बंधुत्व, व्यक्तित्व, पुरुषत्व, सतीत्व, राजत्व, देवत्व, अपनत्व, नारीत्व, पत्नीत्व, स्वामित्व, निजत्व।
- थ – चतुर्थ, पृष्ठ (पृष्+थ), षष्ठ (षष्+थ)।
- था – सर्वथा, अन्यथा, चौथा, प्रथा, पृथा, वृथा, कथा, व्यथा।
- थी – सारथी, परमार्थी, विद्यार्थी।
- द – जलद, नीरद, अंबुद, पयोद, वारिद, दुःखद, सुखद, अंगद, मकरंद।
- दा – सर्वदा, सदा, यदा, कदा, परदा, यशोदा, नर्मदा।
- दान – पानदान, कद्रदान, रोशनदान, कलमदान, इत्रदान, पीकदान, खानदान, दीपदान, धूपदान, पायदान, कन्यादान, शीशदान, भूदान, गोदान, अन्नदान, वरदान, वाग्दान, अभयदान, क्षमादान, जीवनदान।
- दानी – मच्छरदानी, चूहेदानी, नादानी, वरदानी, खानदानी।
- दायक – आनन्ददायक, सुखदायक, कष्टदायक, पीडादायक, आरामदायक, फलदायक।
- दायी – आनन्ददायी, सुखदायी, उत्तरदायी, कष्टदायी, फलदायी।
- दार – मालदार, हिस्सेदार, दुकानदार, हवलदार, थानेदार, जमींदार, फौजदार, कर्जदार, जोरदार, ईमानदार, लेनदार, देनदार, खरीददार, जालीदार, गोटेदार, लहरदार, धारदार, धारीदार, सरदार, पहरेदार, बूँटीदार, समझदार, हवादार, ठिकानेदार, ठेकेदार, परतदार, शानदार, फलीदार, नोकदार।
- दारी – समझदारी, खरीददारी, ईमानदारी, ठेकेदारी, पहरेदारी, लेनदारी, देनदारी।
- दी – वरदी, सरदी, दर्दी।
- धर – चक्रधर, हलधर, गिरिधर, महीधर, विद्याधर, गंगाधर, फणधर, भूधर, शशिधर, विषधर, धरणीधर, मुरलीधर, जलधर, जालन्धर, शृंगधर, अधर, किधर, उधर, जिधर, नामधर।
- धा – बहुधा, अभिधा, समिधा, विविधा, वसुधा, नवधा।
- धि – पयोधि, वारिधि, जलधि, उदधि, संधि, विधि, निधि, अवधि।
- न – नमन, गमन, बेलन, चलन, फटकन, झाड़न, धड़कन, लगन, मिलन, साजन, जलन, फिसलन, ऐँठन, उलझन, लटकन, फलन, राजन, मोहन, सौतन, भवन, रोहन, जीवन, प्रण, प्राण, प्रमाण, पुराण, ऋण, परिमाण, तृण, हरण, भरण, मरण।
- नगर – गंगानगर, श्रीनगर, रामनगर, संजयनगर, जयनगर, चित्रनगर।
- नवीस – फडनवीस, खबरनवीस, नक्शानवीस, चिटनवीस, अर्जनवीस।
- नशीन – पर्दानशीन, गद्दीनशीन, तख्तनशीन, जाँनशीन।
- ना – नाचना, गाना, कूदना, टहलना, मारना, पढ़ना, माँगना, दौड़ना, भागना, तैरना, भावना, कामना, कमीना, महीना, नगीना, मिलना, चलना, खाना, पीना, हँसना, जाना, रोना, लृष्णा।
- नाक – दर्दनाक, शर्मनाक, खतरनाक, खौफनाक।
- नाम – अनाम, गुमनाम, सतनाम, सरनाम, हरिनाम, प्रणाम, परिणाम।
- नामा – अकबरनामा, राजीनामा, मुख्तारनामा, सुलहनामा, हुमायूँनामा, अर्जनामा, रोजनामा, पंचनामा, हलफनामा।
- निष्ठ – कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, कर्त्तव्यनिष्ठ, राजनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ।
- नी – मिलनी, सूँघनी, कतरनी, ओढ़नी, चलनी, लेखनी, मोरनी, चोरनी, चाँदनी, छलनी, धाँकनी, मथनी, कहानी, करनी, जीवनी, छँटनी, नटनी, चटनी, शेरनी, सिँहनी, कथनी, जननी, तरणी, तरुणी, भरणी, तरनी, मँगनी, सारणी।

- नीय – आदरणीय, करणीय, शोचनीय, सहनीय, दर्शनीय, नमनीय।
- नु – शान्तनु, अनु, तनु, भानु, समनु।
- प – महीप, मधुप, जाप, समताप, मिलाप, आलाप।
- पन – लड़कपन, पागलपन, छुटपन, बचपन, बॉझपन, भोलापन, बड़प्पन, पीलापन, अपनापन, गँवारपन, आलसीपन, अलसायापन, वीरप्पन, दीवानापन।
- पाल – द्वारपाल, प्रतिपाल, महीपाल, गोपाल, राज्यपाल, राजपाल, नागपाल, वीरपाल, सत्यपाल, भोपाल, भूपाल, कृपाल, नृपाल।
- पाली – आम्रपाली, भोपाली, रूपाली।
- पुर – अन्तःपुर, सीतापुर, रामपुर, भरतपुर, धौलपुर, गोरखपुर, फिरोजपुर, फतेहपुर, जयपुर।
- पुरा – जोधपुरा, हरिपुरा, श्यामपुरा, जालिमपुरा, नरसिंहपुरा।
- पूर्वक – विधिपूर्वक, दृढतापूर्वक, निश्चयपूर्वक, सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक, ध्यानपूर्वक।
- पोश – मेजपोश, नकाबपोश, सफेदपोश, पलंगपोश, जीनपोश, चिलमपोश।
- प्रद – लाभप्रद, हानिप्रद, कष्टप्रद, संतोषप्रद, उत्साहप्रद, हास्यप्रद।
- बंद – कमरबंद, बिस्तरबंद, बाजबंद, हथियारबंद, कलमबंद, मोहरबंद, बख्तरबंद, नजरबंद।
- बंदी – चकबंदी, घेराबंदी, हदबंदी, मेड़बंदी, नाकाबंदी।
- बाज – नशेबाज, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज, खेलबाज।
- बान – मेजबान, गिरहबान, दरबान, मेहरबान।
- बीन – तमाशबीन, दूरबीन, खुर्दबीन।
- भू – प्रभु (प्र+भू), स्वयंभू।
- मंद – दौलतमंद, फायदेमंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, गरजमंद, मतिमंद, भरोसेमंद।
- म – हराम, जानम, कर्म (कृ+म), धर्म, मर्म, जन्म, मध्यम, सप्तम, छद्म, चर्म, रहम, वहम, प्रीतम, कलम, हरम, श्रम, परम।
- मत् – श्रीमत्।
- मत – जनमत, सलामत, रहमत, बहुमत, कयामत।
- मती – श्रीमती, बुद्धिमती, ज्ञानमती, वीरमती, रूपमती।
- मय – दयामय, जलमय, मनोमय, तेजोमय, विष्णुमय, अन्नमय, तन्मय, चिन्मय, वाङ्मय, अम्मय, भक्तिमय।
- मात्र – नाममात्र, लेशमात्र, क्षणमात्र, पलमात्र, किंचित्मात्र।
- मान – बुद्धिमान, मूर्तिमान, शक्तिमान, शोभायमान, चलायमान, गुंजायमान, हनुमान, श्रीमान, कीर्तिमान, सम्मान, सन्मान, मेहमान।
- य – दृश्य, सादृश्य, लावण्य, वात्सल्य, सामान्य, दांपत्य, सानिध्य, तारुण्य, पाशचात्य, वैधव्य, नैवेद्य, धैर्य, गार्हस्थ्य, सौभाग्य, सौजन्य, औचित्य, कौमार्य, शौर्य, ऐश्वर्य, साम्य, प्राच्य, पार्थक्य, पाण्डित्य, सौन्दर्य, माधुर्य, स्तुत्य, वन्द्य, खाद्य, पूज्य, नृत्य।
- या – शय्या, विद्य, चर्या, मृगया, समस्या, क्रिया, खोया, गया, आया, खाया, गाया, कमाया, जगाया, हँसाया, सताया, पढ़ाया, भगाया, हराया, खिलाया, पिलाया।
- र – नम्र, शुभ्र, क्षुद्र, मधुर, नगर, मुखर, पाण्डुर, कुंजर, प्रखर, विधुर, भ्रमर, कसर, कमर, खँजर, कहार, बहार, सुनार।
- रा – दूसरा, तीसरा, आसरा, कमरा, नवरात्रा, पिटारा, निबटारा, सहारा।
- री – बौंसरी, गठरी, छतरी, चकरी, चाकरी, तीसरी, दूसरी, भोजपुरी, नागरी, जोधपुरी, बीकानेरी, बकरी, वल्लरी।
- रू – दारू, चारू, शुरु, घुघरू, झूमरू, डमरू।
- ल – मंजुल, शीतल, पीतल, ऊर्मिल, घायल, पायल, वत्सल, श्यामल, सजल, कमल, कायल, काजल, सवाल, कमाल।
- ला – अगला, पिछला, मँझला, धुँधला, लाड़ला, श्यामला, कमला, पहला, नहला, दहला।
- ली – सूतली, खुजली, ढपली, घंटाली, सूपली, टीकली, पहली, जाली, खाली, सवाली।
- वंत – बलवंत, दयावंत, भगवंत, कुलवंत, जामवंत, कलावंत।
- व – केशव, राजीव, विधुव, अर्णव, सजीव, रव, शव।
- वत् – पुत्रवत्, विधिवत्, मातृवत्, पितृवत्, आत्मवत्, यथावत्।
- वर – प्रियवर, स्थावर, ताकतवर, ईश्वर, नश्वर, जानवर, नामवर, हिम्मतवर, मान्यवर, वीरवर, स्वयंवर, नटवर, कमलेश्वर, परमेश्वर, महेश्वर।
- वाँ – पाँचवाँ, सातवाँ, दसवाँ, पिटवाँ, चुनवाँ, ढलवाँ, कारवाँ, आठवाँ।
- वा – बचवा, पुरवा, बछवा, मनवा।
- वाई – बनवाई, सुनवाई, तुलवाई, लदवाई, पिछवाई, हलवाई, पुरवाई।
- वाड़ा – रजवाड़ा, हटवाड़ा, जटवाड़ा, पखवाड़ा, बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, दंतेवाड़ा।
- वाड़ी – फुलवाड़ी, बँसवाड़ी।
- वान् – रूपवान्, भाग्यवान्, धनवान्, दयावान्, बलवान्।
- वान – गुणवान, कोचवान, गाड़ीवान, प्रतिभावान, बागवान, धनवान, पहलवान।
- वार – उम्मीदवार, माहवार, तारीखवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कदवार, पतवार, वंदनवार।
- वाल – कोतवाल, पल्लीवाल, पालीवाल, धारीवाल।
- वाला – पानवाला, लिखनेवाला, दूधवाला, पढ़नेवाला, रखवाला, हिम्मतवाला, दिलवाला, फलवाला, रिक्शेवाला, ठेलेवाला, घरवाला, ताँगेवाला।
- वाली – घरवाली, बाहरवाली, मतवाली, ताँगेवाली, नखरावाली, कोतवाली।
- वास – रनिवास, वनवास।
- वी – तेजस्वी, तपस्वी, मेधावी, मायावी, ओजस्वी, मनस्वी, जाह्नवी, लुधियानवी।
- वैया – गवैया, खिवैया, रचैया, लगैया, बजैया।
- व्य – तालव्य, मंतव्य, कर्तव्य, ज्ञातव्य, ध्यातव्य, श्रव्य, वक्तव्य, दृष्टव्य।
- श – कर्कश, रोमश, लोमश, बंदिश।
- शः – क्रमशः, कोटिशः, शतशः, अक्षरशः।
- शाली – प्रतिभाशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, भाग्यशाली, बलशाली।
- शील – धर्मशील, सहनशील, पुण्यशील, दानशील, विचारशील, कर्मशील।
- शाही – लोकशाही, तानाशाही, इमामशाही, कुतुबशाही, नौकरशाही, बादशाही, झाड़शाही, अमरशाही, विजयशाही।
- सा – मुझ-सा, तुझ-सा, नीला-सा, मीठा-सा, चिकीर्षा, पिपासा, जिज्ञासा, लालसा, चिकित्सा, मीमांसा, चाँद-सा, गुलाब-सा, प्यारा-सा, छोटा-सा, पीला-सा, आप-सा।
- साज – जालसाज, जीनसाज, घड़ीसाज, जिल्दसाज।
- सात् – आत्मसात्, भस्मसात्, जलसात्, अग्निसात्, भूमिसात्।
- सार – मिलनसार, एकसार, शर्मसार, खाकसार।
- स्थ – तटस्थ, मार्गस्थ, उदरस्थ, हृदयस्थ, कंठस्थ, मध्यस्थ, गृहस्थ, दूरस्थ, अन्तःस्थ।
- हर – मनोहर, खंडहर, दुःखहर, विघ्नहर, नहर, पीहर, कष्टहर, नोहर, मुहर।
- हरा – इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा, सुनहरा, रूपहरा, छरहरा।
- हार – तारनहार, पालनहार, होनहार, सृजनहार, राखनहार, खेवनहार, खेलनहार, सेवनहार, नौसरहार, गलहार, कंठहार।
- हारा – लकड़हारा, चूड़ीहारा, मनिहारा, पणिहारा, सर्वहारा, तारनहारा, मारनहारा, पालनहारा।
- हीन – कर्महीन, बुद्धिहीन, कुलहीन, बलहीन, शक्तिहीन, मतिहीन, विद्याहीन, धनहीन, गुणहीन।
- हुआ – चलता हुआ, सुनता हुआ, पढ़ता हुआ, करता हुआ, रोता हुआ, पीता हुआ, खाता हुआ, हँसता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, निकलता हुआ, गिरता हुआ, तैरता हुआ, सोचता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ, बहता हुआ, बुझता हुआ, डूबता हुआ।



संधि का अर्थ है— मिलना। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को 'संधि' कहते हैं। जैसे— विद्या+आलय = विद्यालय। यहाँ विद्या शब्द का 'आ' वर्ण और आलय शब्द के 'आ' वर्ण में संधि होकर 'आ' बना है।

**संधि-विच्छेद:** संधि शब्दों को अलग-अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जैसे— हिमालय = हिम+आलय।

परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं, अतः इनके आधार पर ही संधि तीन प्रकार की होती है— (1) स्वर संधि, (2) व्यंजन संधि, (3) विसर्ग संधि।

## 1. स्वर संधि

जहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का परस्पर मेल संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रायः पाँच प्रकार से होता है—

- (1) अ वर्ग = अ, आ
- (2) इ वर्ग = इ, ई
- (3) उ वर्ग = उ, ऊ
- (4) ए वर्ग = ए, ऐ
- (5) ओ वर्ग = ओ, औ।

इन्हीं स्वर-वर्गों के आधार पर स्वर-संधि के पाँच प्रकार होते हैं—

**1. दीर्घ संधि—** जब दो समान स्वर या सवर्ण मिल जाते हैं, चाहे वे ह्रस्व हों या दीर्घ, या एक ह्रस्व हो और दूसरा दीर्घ, तो उनके स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, इसी को सवर्ण दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे—

अ/आ+अ/आ = आ

दैत्य+अरि = दैत्यारि

राम+अवतार = रामावतार

देह+अंत = देहांत

अद्य+अवधि = अद्यावधि

उत्तम+अंग = उत्तमंग

सूर्य+अस्त = सूर्यास्त

कुश+आसन = कुशासन

धर्म+आत्मा = धर्मात्मा

परम+आत्मा = परमात्मा

कदा+अपि = कदापि

दीक्षा+अंत = दीक्षांत

वर्षा+अंत = वर्षांत

गदा+आघात = गदाघात

आत्मा+ आनंद = आत्मानंद

जन्म+अन्ध = जन्मान्ध

श्रद्धा+आलु = श्रद्धालु

सभा+अध्याक्ष = सभाध्यक्ष

पुरुष+अर्थ = पुरुषार्थ

हिम+आलय = हिमालय

परम+अर्थ = परमार्थ

स्व+अर्थ = स्वार्थ

स्व+अधीन = स्वाधीन

पर+अधीन = पराधीन

शस्त्र+अस्त्र = शस्त्रास्त्र

परम+अणु = परमाणु

वेद+अन्त = वेदान्त

अधिक+अंश = अधिकांश

गव+गवाक्ष = गवाक्ष

सुषुप्त+अवस्था = सुषुप्तावस्था

अभय+अरण्य = अभयारण्य

विद्या+आलय = विद्यालय

दया+आनन्द = दयानन्द

श्रद्धा+आनन्द = श्रद्धानन्द

महा+आशय = महाशय

वार्ता+आलाप = वार्तालाप

माया+ आचरण = मायाचरण

महा+अमात्य = महामात्य

द्राक्षा+अरिष्ट = द्राक्षारिष्ट

मूल्य+अंकन = मूल्यांकन

भय+आनक = भयानक

मुक्ता+अवली = मुक्तावली

दीप+अवली = दीपावली

प्रश्न+अवली = प्रश्नावली

कृपा+आकांक्षी = कृपाकांक्षी

विस्मय+आदि = विस्मयादि

सत्य+आग्रह = सत्याग्रह

प्राण+आयाम = प्राणायाम

शुभ+आरंभ = शुभारंभ

मरण+आसन्न = मरणासन्न

शरण+आगत = शरणागत

नील+आकाश = नीलाकाश

भाव+आविष्ट = भावाविष्ट

सर्व+अंगीण = सर्वांगीण

अंत्य+अक्षरी = अंत्याक्षरी

रेखा+अंश = रेखांश

विद्या+अर्थी = विद्यार्थी  
रेखा+अंकित = रेखांकित  
परीक्षा+अर्थी = परीक्षार्थी  
सीमा+अंकित = सीमांकित  
माया+अधीन = मायाधीन  
परा+अस्त = परास्त  
निशा+अंत = निशांत  
गीत+अंजलि = गीतांजलि  
प्र+अर्थी = प्रार्थी  
प्र+अंगन = प्रांगण  
काम+अयनी = कामायनी  
प्रधान+अध्यापक = प्रधानाध्यापक  
विभाग+अध्यक्ष = विभागाध्यक्ष  
शिव+आलय = शिवालय  
पुस्तक+आलय = पुस्तकालय  
चर+अचर = चराचर

### इ/ई+इ/ई = ई

रवि+इन्द्र = रवीन्द्र  
मुनि+इन्द्र = मुनीन्द्र  
कवि+इन्द्र = कवीन्द्र  
गिरि+इन्द्र = गिरीन्द्र  
अभि+इष्ट = अभीष्ट  
शचि+इन्द्र = शचीन्द्र  
यति+इन्द्र = यतीन्द्र  
पृथ्वी+ईश्वर = पृथ्वीश्वर  
श्री+ईश = श्रीश  
नदी+ईश = नदीश  
रजनी+ईश = रजनीश  
मही+ईश = महीश  
नारी+ईश्वर = नारीश्वर  
गिरि+ईश = गिरीश  
हरि+ईश = हरीश  
कवि+ईश = कवीश  
कपि+ईश = कपीश  
मुनि+ईश्वर = मुनीश्वर  
प्रति+ईक्षा = प्रतीक्षा  
अभि+ईप्सा = अभीप्सा  
मही+इन्द्र = महीन्द्र  
नारी+इच्छा = नारीच्छा  
नारी+इन्द्र = नारीन्द्र  
नदी+इन्द्र = नदीन्द्र  
सती+ईश = सतीश  
परि+ईक्षा = परीक्षा  
अधि+ईक्षक = अधीक्षक  
वि+ईक्षण = वीक्षण  
फण+इन्द्र = फणीन्द्र  
प्रति+इत = प्रतीत  
परि+ईक्षित = परीक्षित  
परि+ईक्षक = परीक्षक

### उ/ऊ+उ/ऊ = ऊ

भानु+उदय = भानूदय  
लघु+ऊर्मि = लघूर्मि  
गुरु+उपदेश = गुरुपदेश  
सिंधु+ऊर्मि = सिंधूर्मि  
सु+उवित्त = सूवित्त  
लघु+उत्तर = लघूत्तर  
मंजु+उषा = मंजूषा  
साधु+उपदेश = साधूपदेश  
लघु+उत्तम = लघूत्तम  
भू+ऊर्ध्व = भूर्ध्व  
वधू+उर्मि = वधूर्मि  
वधू+उत्सव = वधूत्सव  
भू+उपरि = भूपरि  
वधू+उवित्त = वधूवित्त  
अनु+उदित = अनूदित  
सरयू+ऊर्मि = सरयूर्मि  
ऋ/ॠ+ऋ/ॠ = ॠ  
मातृ+ऋण = मातृऋण  
पितृ+ऋण = पितृऋण  
भ्रातृ+ऋण = भ्रातृऋण

### 2. गुण संधि-

अ या आ के बाद यदि ह्रस्व इ, उ, ऋ अथवा दीर्घ ई, ऊ, ॠ स्वर हों, तो उनमें संधि होकर क्रमशः ए, ओ, अर् हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे-

अ/आ+इ/ई = ए

भारत+इन्द्र = भारतेन्द्र  
देव+इन्द्र = देवेन्द्र  
नर+इन्द्र = नरेन्द्र  
सुर+इन्द्र = सुरेन्द्र  
वीर+इन्द्र = वीरेन्द्र  
स्व+इच्छा = स्वेच्छा  
न+इति = नेति  
अंत्य+इष्टि = अंत्येष्टि  
महा+इन्द्र = महेन्द्र  
रमा+इन्द्र = रमेन्द्र  
राजा+इन्द्र = राजेन्द्र  
यथा+इष्ट = यथेष्ट  
रसना+इन्द्रिय = रसनेन्द्रिय  
सुधा+इन्दु = सुधेन्दु  
सोम+ईश = सोमेश  
महा+ईश = महेश  
नर+ईश = नरेश  
रमा+ईश = रमेश  
परम+ईश्वर = परमेश्वर  
राजा+ईश = राजेश  
गण+ईश = गणेश  
राका+ईश = राकेश  
अंक+ईक्षण = अंकेक्षण  
लंका+ईश = लंकेश  
महा+ईश्वर = महेश्वर  
प्र+ईक्षक = प्रेक्षक  
उप+ईक्षा = उपेक्षा

### अ/आ+उ/ऊ = ओ

सूर्य+उदय = सूर्योदय  
पूर्व+उदय = पूर्वोदय  
पर+उपकार = परोपकार  
लोक+उचित = लोकोचित  
वीर+उचित = वीरोचित  
आद्य+उपान्त = आद्योपान्त  
नव+ऊढ़ा = नवोढ़ा  
समुद्र+ऊर्मि = समुद्रोर्मि  
जल+ऊर्मि = जलोर्मि  
महा+उत्सव = महोत्सव  
महा+उदधि = महोदधि  
गंगा+उदक = गंगोदक  
यथा+उचित = यथोचित  
कथा+उपकथन = कथोपकथन  
स्वातंत्र्य+उत्तर = स्वातंत्र्योत्तर  
गंगा+ऊर्मि = गंगोर्मि  
महा+ऊर्मि = महोर्मि  
आत्म+उत्सर्ग = आत्मोत्सर्ग  
महा+उदय = महोदय  
करुणा+उत्पादक = करुणोत्पादक  
विद्या+उपार्जन = विद्योपार्जन  
प्र+ऊढ़ = प्रौढ़  
अक्ष+हिनी = अक्षौहिनी

### अ/आ+ऋ = अर्

ब्रह्म+ऋषि = ब्रह्मर्षि  
देव+ऋषि = देवर्षि  
महा+ऋषि = महर्षि  
महा+ऋद्धि = महर्द्धि  
राज+ऋषि = राजर्षि  
सप्त+ऋषि = सप्तर्षि  
सदा+ऋतु = सदर्तु  
शिशिर+ऋतु = शिशिरर्तु  
महा+ऋण = महर्ण

### 3. वृद्धि संधि-

अ या आ के बाद यदि ए, ऐ हों तो इनके स्थान पर 'ऐ' तथा अ, आ के बाद ओ, औ हों तो इनके स्थान पर 'औ' हो जाता है। 'ऐ' तथा 'औ' स्वर 'वृद्धि स्वर' कहलाते हैं अतः इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे-

### अ/आ+ए/ऐ = ऐ

एक+एक = एकैक  
मत+ऐक्य = मतैक्य  
सदा+एव = सदैव  
स्व+ऐच्छिक = स्वैच्छिक  
लोक+एषणा = लोकैषणा  
महा+ऐश्वर्य = महैश्वर्य  
पुत्र+ऐषणा = पुत्रैषणा  
वसुधा+ऐव = वसुधैव  
तथा+एव = तथैव

महा+ऐन्द्रजालिक = महैन्द्रजालिक  
हित+एषी = हितैषी  
वित्त+एषणा = वित्तैषणा  
अ/आ+ओ/औ = औ  
वन+ओषध = वनौषध  
परम+ओज = परमौज  
महा+औघ = महौघ  
महा+औदार्य = महौदार्य  
परम+औदार्य = परमौदार्य  
जल+ओध = जलौध  
महा+ओषधि = महौषधि  
प्र+औद्योगिकी = प्रौद्योगिकी  
दंत+ओष्ठ = दंतोष्ठ (अपवाद)

#### 4. यण संधि-

जब ह्रस्व इ, उ, ऋ या दीर्घ ई, ऊ, ॠ के बाद कोई असमान स्वर आये, तो इ, ई के स्थान पर 'य्' तथा उ, ऊ के स्थान पर 'व्' और ऋ, ॠ के स्थान पर 'र' हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि इ/ई या उ/ऊ स्वर तो 'य्' या 'व्' में बदल जाते हैं किंतु जिस व्यंजन के ये स्वर लगे होते हैं, वह संधि होने पर स्वर-रहित हो जाता है। जैसे-  
अभि+अर्थी = अभ्यर्थी, तनु+अंगी = तन्वंगी। यहाँ अभ्यर्थी में 'य्' के पहले 'भ्' तथा तन्वंगी में 'व्' के पहले 'न्' स्वर-रहित हैं। प्रायः य्, व्, र् से पहले स्वर-रहित व्यंजन का होना यण संधि की पहचान है। जैसे-

#### इ/ई+अ = य

यदि+अपि = यद्यपि  
परि+अटन = पर्यटन  
नि+अस्त = न्यस्त  
वि+अस्त = व्यस्त  
वि+अय = व्यय  
वि+अग्र = व्यग्र  
परि+अंक = पर्यंक  
परि+अवेक्षक = पर्यवेक्षक  
वि+अष्टि = व्यष्टि  
वि+अंजन = व्यंजन  
वि+अवहार = व्यवहार  
वि+अभिचार = व्यभिचार  
वि+अक्ति = व्यक्ति  
वि+अवस्था = व्यवस्था  
वि+अवसाय = व्यवसाय  
प्रति+अय = प्रत्यय  
नदी+अर्पण = नद्यर्पण  
अभि+अर्थी = अभ्यर्थी  
परि+अंत = पर्यंत  
अभि+उदय = अभ्युदय  
देवी+अर्पण = देव्यर्पण  
प्रति+अर्पण = प्रत्यर्पण  
प्रति+अक्ष = प्रत्यक्ष  
वि+अंग्य = व्यंग्य

#### इ/ई+आ = या

वि+आप्त = व्याप्त  
अधि+आय = अध्याय  
इति+आदि = इत्यादि  
परि+आवरण = पर्यावरण  
अभि+आगत = अभ्यागत  
वि+आस = व्यास  
वि+आयाम = व्यायाम  
अधि+आदेश = अध्यादेश  
वि+आख्यान = व्याख्यान  
प्रति+आशी = प्रत्याशी  
अधि+आपक = अध्यापक  
वि+आकुल = व्याकुल  
अधि+आत्म = अध्यात्म  
प्रति+आवर्तन = प्रत्यावर्तन  
प्रति+आशित = प्रत्याशित  
प्रति+आभूति = प्रत्याभूति  
प्रति+आरोपण = प्रत्यारोपण  
वि+आवृत्त = व्यावृत्त  
वि+आधि = व्याधि  
वि+आहत = व्याहत  
प्रति+आहार = प्रत्याहार  
अभि+आस = अभ्यास  
सखी+आगमन = सख्यागमन  
मही+आधार = म्हाधार

#### इ/ई+उ/ऊ = यु/यू

परि+उषण = पर्युषण  
नारी+उचित = नार्युचित  
उपरि+उक्त = उपर्युक्त  
स्त्री+उपयोगी = सुपयोगी

अभि+उदय = अभ्युदय  
 अति+उक्ति = अत्युक्ति  
 प्रति+उत्तर = प्रत्युत्तर  
 अभि+उत्थान = अभ्युत्थान  
 आदि+उपांत = आद्युपांत  
 अति+उत्तम = अत्युत्तम  
 स्त्री+उचित = युचित  
 प्रति+उत्पन्न = प्रत्युत्पन्न  
 प्रति+उपकार = प्रत्युपकार  
 वि+उत्पत्ति = व्युत्पत्ति  
 वि+उपदेश = व्युपदेश  
 नि+ऊन = न्यून  
 प्रति+ऊह = प्रत्यूह  
 वि+ऊह = व्यूह  
 अभि+ऊह = अभ्यूह  
**इ/ई+ए/ओ/औ = ये/यो/यौ**  
 प्रति+एक = प्रत्येक  
 वि+ओम = व्योम  
 वाणी+औचित्य = वाण्यौचित्य  
**उ/ऊ+अ/आ = व/वा**  
 तनु+अंगी = तन्वंगी  
 अनु+अय = अन्वय  
 मधु+अरि = मध्वरि  
 सु+अल्प = स्वल्प  
 समनु+अय = समन्वय  
 सु+अस्ति = स्वस्ति  
 परमाणु+अस्त्र = परमाण्वस्त्र  
 सु+आगत = स्वागत  
 साधु+आचार = साध्वाचार  
 गुरु+आदेश = गुर्वादेश  
 मधु+आचार्य = मध्वाचार्य  
 वधु+आगमन = वध्वागमन  
 ऋतु+आगमन = ऋत्वागमन  
 सु+आभास = स्वाभास  
 सु+आगम = स्वागम  
**उ/ऊ+इ/ई/ए = वि/वी/वे**  
 अनु+इति = अन्विति  
 धातु+इक = धात्विक  
 अनु+इष्ट = अन्विष्ट  
 पू+इत्र = पवित्र  
 अनु+ईक्षा = अन्वीक्षा  
 अनु+ईक्षण = अन्वीक्षण  
 तनु+ई = तन्वी  
 धातु+ईय = धात्व्रीय  
 अनु+एषण = अन्वेषण  
 अनु+एषक = अन्वेषक  
 अनु+एक्षक = अन्वेषक  
**ऋ+अ/आ/इ/उ = र/रा/रि/रु**  
 मातृ+अर्थ = मात्रर्थ  
 पितृ+अनुमति = पितृनुमति  
 मातृ+आनन्द = मात्रानन्द  
 पितृ+आज्ञा = पित्राज्ञा  
 मातृ+आज्ञा = मात्राज्ञा  
 पितृ+आदेश = पित्रादेश  
 मातृ+आदेश = मात्रादेश  
 मातृ+इच्छा = मात्रिच्छा  
 पितृ+इच्छा = पित्रिच्छा  
 मातृ+उपदेश = मात्रुपदेश  
 पितृ+उपदेश = पित्रुपदेश

##### 5. अयादि संधि-

ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई असमान स्वर हो, तो 'ए' का 'अय्', 'ऐ' का 'आय्', 'ओ' का 'अव्' तथा 'औ' का 'आव्' हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे-

**ए/ऐ+अ/इ = अय/आय/आयि**

ने+अन = नयन  
 शे+अन = शयन  
 चे+अन = चयन  
 संचे+अ = संचय  
 चै+अ = चाय  
 गै+अक = गायक  
 गै+अन् = गायन  
 नै+अक = नायक  
 दै+अक = दायक  
 शै+अर = शायर  
 विधै+अक = विधायक  
 विनै+अक = विनायक

नै+इका = नायिका  
 गै+इका = गायिका  
 दै+इनी = दायिनी  
 विधे+इका = विधायिका  
 ओ/औ+अ = अव/आव  
 भो+अन् = भवन  
 पो+अन् = पवन  
 भो+अति = भवति  
 हो+अन् = हवन  
 पौ+अन् = पावन  
 धौ+अक = धावक  
 पौ+अक = पावक  
 शौ+अक = शावक  
 भौ+अ = भाव  
 श्रौ+अन = श्रावण  
 रौ+अन = रावण  
 स्त्रौ+अ = स्त्राव  
 प्रस्तौ+अ = प्रस्ताव  
 गव+अक्ष = गवाक्ष (अपवाद)  
 ओ/औ+इ/ई/उ = अवि/अवी/आवु  
 रो+इ = रवि  
 भो+इष्य = भविष्य  
 गौ+ईश = गवीश  
 नौ+इक = नाविक  
 प्रभौ+इति = प्रभावित  
 प्रस्तौ+इत = प्रस्तावित  
 भौ+उक = भावुक

## 2. व्यंजन संधि

व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन होते हैं। इसके अनेक भेद होते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं—

1. यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर, किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आये तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे—

'क' का 'क्' होना

दिक्+अम्बर = दिग्म्बर  
 दिक्+दर्शन = दिग्दर्शन  
 वाक्+जाल = वाग्जाल  
 वाक्+ईश = वागीश  
 दिक्+अंत = दिगंत  
 दिक्+गज = दिग्गज  
 ऋक्+वेद = ऋग्वेद  
 दृक्+अंचल = दृगंचल  
 वाक्+ईश्वरी = वागीश्वरी  
 प्राक्+ऐतिहासिक = प्रागैतिहासिक  
 दिक्+गयंद = दिग्गयंद  
 वाक्+जड़ता = वाग्जड़ता  
 सम्यक्+ज्ञान = सम्यग्ज्ञान  
 वाक्+दान = वाग्दान  
 दिक्+भ्रम = दिग्भ्रम  
 वाक्+दत्ता = वाग्दत्ता  
 दिक्+वधू = दिग्वधू  
 दिक्+हस्ती = दिग्हस्ती  
 वाक्+व्यापार = वाग्व्यापार  
 वाक्+हरि = वाग्हरि

'च' का 'च्'

अच्+अन्त = अजन्त  
 अच्+आदि = अजादि  
 गिच्+अंत = गिजंत

'ट' का 'ट्'

षट्+आनन = षडानन  
 षट्+दर्शन = षडदर्शन  
 षट्+रिपु = षड्रिपु  
 षट्+अक्षर = षडक्षर  
 षट्+अभिज्ञ = षडभिज्ञ  
 षट्+गुण = षड्गुण  
 षट्+भुजा = षड्भुजा  
 षट्+यत्र = षडयत्र  
 षट्+रस = षड्रस  
 षट्+राग = षड्राग

'त्' का 'ट्'

सत्+विचार = सद्विचार  
 जगत्+अम्बा = जगदम्बा  
 सत्+धर्म = सद्वधर्म  
 तत्+भव = तद्वभव

उत्+घाटन = उद्घाटन  
 सत्+आशय = सदाशय  
 जगत्+आत्मा = जगदात्मा  
 सत्+आचार = सदाचार  
 जगत्+ईश = जगदीश  
 तत्+अनुसार = तदनुसार  
 तत्+रूप = तद्रूप  
 सत्+उपयोग = सदुपयोग  
 भगवत्+गीता = भगवद्गीता  
 सत्+गति = सद्गति  
 उत्+गम = उद्गम  
 उत्+आहरण = उदाहरण  
 इस नियम का अपवाद भी है जो इस प्रकार है—  
 त्+ड/ढ = त् के स्थान पर ड़  
 त्+ज/झ = त् के स्थान पर ज़  
 त्+ल् = त् के स्थान पर ल्  
 जैसे—  
 उत्+डयन = उड़डयन  
 सत्+जन = सज्जन  
 उत्+लंघन = उल्लंघन  
 उत्+लेख = उल्लेख  
 तत्+जन्य = तज्जन्य  
 उत्+ज्वल = उज्ज्वल  
 विपत्+जाल = विपत्जाल  
 उत्+लास = उल्लास  
 तत्+लीन = तल्लीन  
 जगत्+जननी = जगज्जननी

2. यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण (ड, ञ, ण, न, म) हो तो पहला या तीसरा वर्ण भी पाँचवाँ वर्ण हो जाता है। जैसे—  
 प्रथम/तृतीय वर्ण+पंचम वर्ण = पंचम वर्ण

वाक्+मय = वाङ्मय  
 दिक्+नाग = दिङ्नाग  
 सत्+नारी = सन्नारी  
 जगत्+नाथ = जगन्नाथ  
 सत्+मार्ग = सन्मार्ग  
 चित्+मय = चिन्मय  
 सत्+मति = सन्मति  
 उत्+नायक = उन्नयक  
 उत्+मूलन = उन्मूलन  
 अप्+मय = अम्मय  
 सत्+मान = सन्मान  
 उत्+माद = उन्माद  
 उत्+नत = उन्नत  
 वाक्+निपुण = वाङ्निपुण  
 जगत्+माता = जगन्माता  
 उत्+मत्त = उन्मत्त  
 उत्+मेष = उन्मेष  
 तत्+नाम = तन्नम  
 उत्+नयन = उन्नयन  
 षट्+मुख = षण्मुख  
 उत्+मुख = उन्मुख  
 श्रीमत्+नारायण = श्रीमन्नारायण  
 षट्+मूर्ति = षण्मूर्ति  
 उत्+मोचन = उन्मोचन  
 भवत्+निष्ठ = भवन्निष्ठ  
 तत्+मय = तन्मय  
 षट्+मास = षण्मास  
 सत्+नियम = सन्नियम  
 दिक्+नाथ = दिङ्नाथ  
 वृहत्+माला = वृहन्माला  
 वृहत्+नला = वृहन्नला

3. 'त्' या 'द' के बाद च या छ हो तो 'त्/द' के स्थान पर 'च्', 'ज्' या 'झ' हो तो 'ज्', 'द' या 'द' हो तो 'द', 'ड' या 'ढ' हो तो 'ड' और 'ल' हो तो 'ल्' हो जाता है। जैसे—

त्+च/छ = च्च/च्छ  
 सत्+छात्र = सच्चछात्र  
 सत्+चरित्र = सच्चरित्र  
 समुत्+चय = समुच्चय  
 उत्+चरित = उच्चरित  
 सत्+चित = सच्चित  
 जगत्+छाया = जगच्छाया  
 उत्+छेद = उच्छेद  
 उत्+चाटन = उच्चाटन  
 उत्+चारण = उच्चारण  
 शरत्+चन्द्र = शरच्चन्द्र  
 उत्+छिन = उच्छिन

सत्+चिदानन्द = सच्चिदानन्द

उत्+छादन = उच्छादन

त्/द्+ज/झ = जज/जझ

सत्+जन = सज्जन

तत्+जन्य = तज्जन्य

उत्+ज्वल = उज्ज्वल

जगत्+जननी = जगज्जननी

त्+ट/ठ = ट्ट/ठ्ठ

तत्+टीका = तट्टीका

वृहत्+टीका = वृहट्टीका

त्+ड/ढ = ड्ड/ढ्ढ

उत्+डयन = उड्डयन

जलत्+डमरु = जलड्डमरु

भवत्+डमरु = भवड्डमरु

महत्+ढाल = महड्डढाल

त्+ल = ल्ल

उत्+लेख = उल्लेख

उत्+लास = उल्लास

तत्+लीन = तल्लीन

उत्+लंघन = उल्लंघन

4. यदि 'त्' या 'द्' के बाद 'ह' आये तो उनके स्थान पर 'द्ध' हो जाता है। जैसे—

उत्+हार = उद्धार

तत्+हित = तद्धित

उत्+हरण = उद्धरण

उत्+हत = उद्धत

पत्+हति = पद्धति

पत्+हरि = पद्धरि

उपर्युक्त संधियाँ का दूसरा रूप इस प्रकार प्रचलित है—

उद्+हार = उद्धार

तद्+हित = तद्धित

उद्+हरण = उद्धरण

उद्+हत = उद्धत

पद्+हति = पद्धति

ये संधियाँ दोनों प्रकार से मान्य हैं।

5. यदि 'त्' या 'द्' के बाद 'श्' हो तो 'त् या द्' का 'च्' और 'श्' का 'छ' हो जाता है। जैसे—

त्/द्+श् = च्छ

उत्+श्वास = उच्छ्वास

तत्+शिव = तच्छिव

उत्+शिष्ट = उच्छिष्ट

मृद्+शकटिक = मृच्छकटिक

सत्+शास्त्र = सच्छास्त्र

तत्+शंकर = तच्छंकर

उत्+शृंखल = उच्छृंखल

6. यदि किसी भी स्वर वर्ण के बाद 'छ' हो तो वह 'च्छ' हो जाता है। जैसे—

कोई स्वर+छ = च्छ

अनु+छेद = अनुच्छेद

परि+छेद = परिच्छेद

वि+छेद = विच्छेद

तरु+छाया = तरुच्छाया

स्व+छन्द = स्वच्छन्द

आ+छादन = आच्छादन

वृक्ष+छाया = वृक्षच्छाया

7. यदि 'त्' के बाद 'स्' (हलन्त) हो तो 'स्' का लोप हो जाता है। जैसे—

उत्+स्थान = उत्थान

उत्+स्थित = उत्थित

8. यदि 'म्' के बाद 'क्' से 'भ्' तक का कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो 'म्' का अनुस्वार हो जाता है, या उसी वर्ण का पाँचवाँ अनुनासिक वर्ण बन जाता है। जैसे—

म्+कोई व्यंजन = म् के स्थान पर अनुस्वार (ं) या उसी वर्ण का पंचम वर्ण

सम्+चार = संचार/सञ्चार

सम्+कल्प = संकल्प/सङ्कल्प

सम्+ध्या = संध्या/सन्ध्या

सम्+भव = संभव/सम्भव

सम्+पूर्ण = संपूर्ण/सम्पूर्ण

सम्+जीवनी = संजीवनी

सम्+तोष = संतोष/सन्तोष

किम्+कर = किंकर/किङ्कर

सम्+बन्ध = संबन्ध/सम्बन्ध

सम्+धि = संधि/सन्धि

सम्+गति = संगति/सङ्गति

सम्+चय = संचय/सञ्चय

परम्+तु = परन्तु/परंतु

दम्+ड = दण्ड/दंड

दिवम्+गत = दिवंगत  
 अलम्+कार = अलंकार  
 शुभम्+कर = शुभंकर  
 सम्+कलन = संकलन  
 सम्+घनन = संघनन  
 पम्+चम् = पंचम  
 सम्+तुष्ट = संतुष्ट/सन्तुष्ट  
 सम्+दिग्ध = संदिग्ध/सन्दिग्ध  
 अम्+ड = अण्ड/अंड  
 सम्+तति = संतति  
 सम्+क्षेप = संक्षेप  
 अम्+क = अंक/अङ्क  
 हृदयम्+गम = हृदयगम  
 सम्+गठन = संगठन/सङ्गठन  
 सम्+जय = संजय  
 सम्+ज्ञा = संज्ञा  
 सम्+क्रान्ति = संक्रान्ति  
 सम्+देश = संदेश/सन्देश  
 सम्+चित = संचित/सञ्चित  
 किम्+तु = किंतु/किन्तु  
 वसुम्+धर = वसुन्धरा/वसुंधरा  
 सम्+भाषण = संभाषण  
 तीर्थम्+कर = तीर्थंकर  
 सम्+कर = संकर  
 सम्+घटन = संघटन  
 किम्+चित = किंचित  
 धनम्+जय = धनंजय/धनञ्जय  
 सम्+देह = सन्देह/संदेह  
 सम्+न्यासी = संन्यासी  
 सम्+निकट = सन्निकट

9. यदि 'म्' के बाद 'म' आये तो 'म्' अपरिवर्तित रहता है। जैसे—

म्+म = म्म

सम्+मति = सम्मति  
 सम्+मिश्रण = सम्मिश्रण  
 सम्+मिलित = सम्मिलित  
 सम्+मान = सम्मान  
 सम्+मोहन = सम्मोहन  
 सम्+मानित = सम्मानित  
 सम्+मुख = सम्मुख

10. यदि 'म्' के बाद य, र, ल, व, श, ष, स, ह में से कोई वर्ण आये तो 'म्' के स्थान पर अनुस्वार (ं) हो जाता है। जैसे—

म्+य, र, ल, व, श, ष, स, ह = अनुस्वार (ं)  
 सम्+योग = संयोग  
 सम्+वाद = संवाद  
 सम्+हार = संहार  
 सम्+लग्न = संलग्न  
 सम्+रक्षण = संरक्षण  
 सम्+शय = संशय  
 किम्+वा = किंवा  
 सम्+विधान = संविधान  
 सम्+शोधन = संशोधन  
 सम्+रक्षा = संरक्षा  
 सम्+सार = संसार  
 सम्+रक्षक = संरक्षक  
 सम्+युक्त = संयुक्त  
 सम्+स्मरण = संस्मरण  
 स्वयम्+वर = स्वयंवर  
 सम्+हित = संहिता

11. यदि 'स' से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का 'ष' हो जाता है। जैसे—

अ, आ से भिन्न स्वर+स = स के स्थान पर ष

वि+सम = विषम  
 नि+सेध = निषेध  
 नि+सिद्ध = निषिद्ध  
 अभि+सेक = अभिषेक  
 परि+सद् = परिषद्  
 नि+स्नात = निष्णात  
 अभि+सिक्त = अभिषिक्त  
 सु+सुप्ति = सुषुप्ति  
 उपनि+सद् = उपनिषद्  
 अपवाद—  
 अनु+सरण = अनुसरण  
 अनु+स्वार = अनुस्वार  
 वि+स्मरण = विस्मरण  
 वि+सर्ग = विसर्ग

12. यदि 'ष' के बाद 'त' या 'थ' हो तो 'ष' आधा वर्ण तथा 'त' के स्थान पर 'ट' और 'थ' के स्थान पर 'ठ' हो जाता है। जैसे—

ष+त/थ = ष्ट/ष्ठ

आकृष+त = आकृष्ट

उत्कृष+त = उत्कृष्ट

तुष+त = तुष्ट

सृष+ति = सृष्टि

षष+थ = षष्ठ

पृष+थ = पृष्ठ

13. यदि 'द्' के बाद क, त, थ, प या स आये तो 'द्' का 'त्' हो जाता है। जैसे—

द्+क, त, थ, प, स = द् की जगह त्

उद्+कोच = उत्कोच

मृद्+तिका = मृत्तिका

विपद्+ति = विपत्ति

आपद्+ति = आपत्ति

तद्+पर = तत्पर

संसद्+सत्र = संसत्सत्र

संसद्+सदस्य = संसत्सदस्य

उपनिषद्+काल = उपनिषत्काल

उद्+तर = उत्तर

तद्+क्षण = तत्क्षण

विपद्+काल = विपत्काल

शरद्+काल = शरत्काल

मृद्+पात्र = मृत्पात्र

14. यदि 'ऋ' और 'द्' के बाद 'म' आये तो 'द्' का 'ण्' बन जाता है। जैसे—

ऋद्+म = ण्म

मृद्+मय = मृण्मय

मृद्+मूर्ति = मृण्मूर्ति

15. यदि इ, ऋ, र, ष के बाद स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार, य, व, ह में से किसी वर्ण के बाद 'न' आ जाये तो 'न' का 'ण' हो जाता है। जैसे—

(i) इ/ऋ/र/ष+ न= न के स्थान पर ण

(ii) इ/ऋ/र/ष+स्वर/क वर्ग/प वर्ग/अनुस्वार/य, व, ह+न = न के स्थान पर ण

प्र+मान = प्रमाण

भर+न = भरण

नार+अयन = नारायण

परि+मान = परिमाण

परि+नाम = परिणाम

प्र+यान = प्रयाण

तर+न = तरण

शोष+अन् = शोषण

परि+नत = परिणत

पोष+अन् = पोषण

विष+नु = विष्णु

राम+अयन = रामायण

भूष+अन = भूषण

ऋ+न = ऋण

मर+न = मरण

पुरा+न = पुराण

हर+न = हरण

तृष्+ना = तृष्णा

तृ+न = तृण

प्र+न = प्रण

16. यदि सम् के बाद कृत, कृति, करण, कार आदि में से कोई शब्द आये तो म् का अनुस्वार बन जाता है एवं स् का आगमन हो जाता है। जैसे—

सम्+कृत = संस्कृत

सम्+कृति = संस्कृति

सम्+करण = संस्करण

सम्+कार = संस्कार

17. यदि परि के बाद कृत, कार, कृति, करण आदि में से कोई शब्द आये तो संधि में 'परि' के बाद 'ष्' का आगम हो जाता है। जैसे—

परि+कार = परिष्कार

परि+कृत = परिष्कृत

परि+करण = परिष्करण

परि+कृति = परिष्कृति

### 3. विसर्ग संधि

जहाँ विसर्ग (:) के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है।

विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार हैं—

1. यदि 'अ' के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण या अन्तःस्थ वर्ण (य, र, ल, व) हो, तो 'अः' का 'ओ' हो जाता है। जैसे—

अः+किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण, य, र, ल, व = अः का ओ

मनः+वेग = मनोवेग

मनः+अभिलाषा = मनोभिलाषा  
 मनः+अनुभूति = मनोभूति  
 पयः+निधि = पयोनिधि  
 यशः+अभिलाषा = यशोभिलाषा  
 मनः+बल = मनोबल  
 मनः+रंजन = मनोरंजन  
 तपः+बल = तपोबल  
 तपः+भूमि = तपोभूमि  
 मनः+हर = मनोहर  
 वयः+वृद्ध = वयोवृद्ध  
 सरः+ज = सरोज  
 मनः+नयन = मनोनयन  
 पयः+द = पयोद  
 तपः+धन = तपोधन  
 उरः+ज = उरोज  
 शिरः+भाग = शिरोभाग  
 मनः+व्यथा = मनोव्यथा  
 मनः+नीत = मनोनीत  
 तमः+गुण = तमोगुण  
 पुरः+गामी = पुरोगामी  
 रजः+गुण = रजोगुण  
 मनः+विकार = मनोविकार  
 अधः+गति = अधोगति  
 पुरः+हित = पुरोहित  
 यशः+दा = यशोदा  
 यशः+गान = यशोगान  
 मनः+ज = मनोज  
 मनः+विज्ञान = मनोविज्ञान  
 मनः+दशा = मनोदशा

2. यदि विसर्ग से पहले और बाद में 'अ' हो, तो पहला 'अ' और विसर्ग मिलकर 'ओऽ' या 'ओ' हो जाता है तथा बाद के 'अ' का लोप हो जाता है। जैसे—

अः+अ = ओऽ/ओ

यशः+अर्थी = यशोऽर्थी/यशोर्थी

मनः+अनुकूल = मनोऽनुकूल/मनोनुकूल

प्रथमः+अध्याय = प्रथमोऽध्याय/प्रथमोऽध्याय

मनः+अभिराम = मनोऽभिराम/मनोभिराम

परः+अक्ष = परोक्ष

3. यदि विसर्ग से पहले 'अ' या 'आ' से भिन्न कोई स्वर तथा बाद में कोई स्वर, किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का 'र' हो जाता है। जैसे—

अ, आ से भिन्न स्वर+वर्ण का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण/य, र, ल, व, ह = (:) का 'र'

दुः+बल = दुर्बल

पुनः+आगमन = पुनरागमन

आशीः+वाद = आशीर्वाद

निः+मल = निर्मल

दुः+गुण = दुर्गुण

आयुः+वेद = आयुर्वेद

बहिः+रंग = बहिरंग

दुः+उपयोग = दुरुपयोग

निः+बल = निर्बल

बहिः+मुख = बहिर्मुख

दुः+ग = दुर्ग

प्रादुः+भाव = प्रादुर्भाव

निः+आशा = निराशा

निः+अर्थक = निरर्थक

निः+यात = निर्यात

दुः+आशा = दुराशा

निः+उत्साह = निरुत्साह

आविः+भाव = आविर्भाव

आशीः+वचन = आशीर्वचन

निः+आहार = निराहार

निः+आधार = निराधार

निः+भय = निर्भय

निः+आमिष = निरामिष

निः+विघ्न = निर्विघ्न

धनुः+धर = धनुर्धर

4. यदि विसर्ग के बाद 'र' हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे—

ह्रस्व स्वर(ः)+र = (:) का लोप व पूर्व का स्वर दीर्घ

निः+रोग = नीरोग

निः+रज = नीरज

निः+रस = नीरस

निः+रव = नीरव

5. यदि विसर्ग के बाद 'च' या 'छ' हो तो विसर्ग का 'श्', 'ट' या 'ठ' हो तो 'ष्' तथा 'त्', 'थ', 'क', 'स्' हो तो 'स्' हो जाता है। जैसे—

विसर्ग (ः)+च/छ = श्

निः+चय = निश्चय  
 निः+चिन्त = निश्चिन्त  
 दुः+चरित्र = दुश्चरित्र  
 हयिः+चन्द्र = हरिश्चन्द्र  
 पुरः+चरण = पुरश्चरण  
 तपः+चर्या = तपश्चर्या  
 कः+चित् = कश्चित्  
 मनः+चिकित्सा = मनश्चिकित्सा  
 निः+चल = निश्चल  
 निः+छल = निश्छल  
 दुः+चक्र = दुश्चक्र  
 पुनः+चर्या = पुनश्चर्या  
 अः+चर्य = आश्चर्य  
 विसर्ग(:)+ट/ठ = ष्  
 धनुः+टंकार = धनुष्टंकार  
 निः+दुर = निष्टुर  
 विसर्ग(:)+त/थ = स्  
 मनः+ताप = मनस्ताप  
 दुः+तर = दुस्तर  
 निः+तेज = निस्तेज  
 निः+तार = निस्तार  
 नमः+ते = नमस्ते  
 अः/आः+क = स्  
 भाः+कर = भास्कर  
 पुरः+कृत = पुरस्कृत  
 नमः+कार = नमस्कार  
 तिरः+कार = तिरस्कार

6. यदि विसर्ग से पहले 'इ' या 'उ' हो और बाद में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का 'ष्' हो जाता है। जैसे—

इः/उः+क/ख/प/फ = ष्  
 निः+कपट = निष्कपट  
 दुः+कर्म = दुष्कर्म  
 निः+काम = निष्काम  
 दुः+कर = दुष्कर  
 बहिः+कृत = बहिष्कृत  
 चतुः+कोण = चतुष्कोण  
 निः+प्रभ = निष्प्रभ  
 निः+फल = निष्फल  
 निः+पाप = निष्पाप  
 दुः+प्रकृति = दुष्प्रकृति  
 दुः+परिणाम = दुष्परिणाम  
 चतुः+पद = चतुष्पद

7. यदि विसर्ग के बाद श, ष, स हो तो विसर्ग ज्यों के त्यों रह जाते हैं या विसर्ग का स्वरूप बाद वाले वर्ण जैसा हो जाता है। जैसे—

विसर्ग+श/ष/स = (:) या श्श/ष्ष्/स्स्  
 निः+शुल्क = निःशुल्क/निश्शुल्क  
 दुः+शासन = दुःशासन/दुश्शासन  
 यशः+शरीर = यशःशरीर/यश्शरीर  
 निः+सन्देह = निःसन्देह/निस्सन्देह  
 निः+सन्तान = निःसन्तान/निस्सन्तान  
 निः+संकोच = निःसंकोच/निस्संकोच  
 दुः+साहस = दुःसाहस/दुस्साहस  
 दुः+सह = दुःसह/दुस्सह

8. यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे—

अः+क/ख/प/फ = (:) का लोप नहीं  
 अन्तः+करण = अन्तःकरण  
 प्रातः+काल = प्रातःकाल  
 पयः+पान = पयःपान  
 अधः+पतन = अधःपतन  
 मनः+कामना = मनःकामना

9. यदि 'अ' के बाद विसर्ग हो और उसके बाद 'अ' से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास आये स्वरों में संधि नहीं होती है। जैसे—

अः+अ से भिन्न स्वर = विसर्ग का लोप  
 अतः+एव = अत एव  
 पयः+ओदन = पय ओदन  
 रजः+उद्गम = रज उद्गम  
 यशः+इच्छा = यश इच्छा

## हिन्दी भाषा की अन्य संधियाँ

हिन्दी की कुछ विशेष सन्धियाँ भी हैं। इनमें स्वरों का दीर्घ का ह्रस्व होना और ह्रस्व का दीर्घ हो जाना, स्वर का आगम या लोप हो जाना आदि मुख्य हैं। इसमें व्यंजनों का परिवर्तन प्रायः अत्यल्प होता है। उपसर्ग या प्रत्ययों से भी इस तरह की संधियाँ हो जाती हैं। ये अन्य संधियाँ निम्न प्रकार हैं—

1. ह्रस्वीकरण—

(क) आदि ह्रस्व— इसमें संधि के कारण पहला दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे—

घोड़ा+सवार = घुड़सवार  
घोड़ा+चढ़ी = घुड़चढ़ी  
दूध+मुँहा = दुधमुँहा  
कान+कटा = कनकटा  
काठ+फोड़ा = कठफोड़ा  
काठ+पुतली = कठपुतली  
मोटा+पा = मुटापा  
छोटा+भैया = छुटभैया  
लोटा+इया = लुटिया  
मुँछ+कटा = मुँछकटा  
आधा+खिला = अधखिला  
काला+मुँहा = कलमुँहा  
ठाकुर+आइन = ठकुराइन  
लकड़ी+हारा = लकड़हारा  
(ख) उभयपद ह्रस्व- दोनों पदों के दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे-  
एक+साठ = इकसठ  
काट+खाना = कटखाना  
पानी+घाट = पनघट  
ऊँचा+नीचा = ऊँचनीच  
लेना+देना = लेनदेन

## 2. दीर्घीकरण-

इसमें संधि के कारण ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है और पद का कोई अंश लुप्त भी हो जाता है। जैसे-

दीन+नाथ = दीनानाथ  
ताल+मिलाना = तालमेल  
मूसल+धार = मूसलाधार  
आना+जाना = आवाजाही  
व्यवहार+इक = व्यावहारिक  
उत्तर+खंड = उत्तराखंड  
लिखना+पढ़ना = लिखापढ़ी  
हिलना+मिलना = हेलमेल  
मिलना+जुलना = मेलजोल  
प्रयोग+इक = प्रायोगिक  
स्वस्थ+य = स्वास्थ्य  
वेद+इक = वैदिक  
नीति+इक = नैतिक  
योग+इक = यौगिक  
भूत+इक = भौतिक  
कुंती+एय = काँतेय  
वासुदेव+अ = वासुदेव  
दिति+य = दैत्य  
देव+इक = दैविक  
सुंदर+य = सौंदर्य  
पृथक+य = पार्थक्य

## 3. स्वरलोप-

इसमें संधि के कारण कोई स्वर लुप्त हो जाता है। जैसे-

बकरा+ईद = बकरीद।

## 4. व्यंजन लोप-

इसमें कोई व्यंजन सन्धि के कारण लुप्त हो जाता है।

(क) 'स' या 'ह' के बाद 'ह्' होने पर 'ह्' का लोप हो जाता है। जैसे-

इस+ही = इसी  
उस+ही = उसी  
यह+ही = यही  
वह+ही = वही

(ख) 'हाँ' के बाद 'ह' होने पर 'हाँ' का लोप हो जाता है तथा बने हुए शब्द के अन्त में अनुस्वार लगता है। जैसे-

यहाँ+ही = यहीं  
वहाँ+ही = वहीं  
कहाँ+ही = कहीं

(ग) 'ब' के बाद 'ह्' होने पर 'ब' का 'भ' हो जाता है और 'ह्' का लोप हो जाता है। जैसे-

अब+ही = अभी  
तब+ही = तभी  
कब+ही = कभी  
सब+ही = सभी

## 5. आगम संधि-

इसमें सन्धि के कारण कोई नया वर्ण बीच में आ जुड़ता है। जैसे-

खा+आ = खाया  
रो+आ = रोया  
ले+आ = लिया  
पी+ए = पीजिए  
ले+ए = लीजिए  
आ+ए = आइए।

# कुछ विशिष्ट संधियों के उदाहरण:

नव+रात्रि = नवरात्र  
प्राणिन्+विज्ञान = प्राणिविज्ञान  
शशिन्+प्रभा = शशिप्रभा  
अक्ष+ऊहिनी = अक्षौहिणी  
सुहृद्+अ = सौहार्द  
अहन्+निश = अहर्निश  
प्र+भू = प्रभु  
अप+अंग = अपंग/अपांग  
अधि+स्थान = अधिष्ठान  
मनस्+ईष = मनीष  
प्र+ऊढ = प्रौढ  
उपनिषद्+मीमांसा = उपनिषन्मीमांसा  
गंगा+एय = गांगेय  
राजन्+तिलक = राजतिलक  
दायिन्+त्व = दायित्व  
विश्व+मित्र = विश्वमित्र  
मार्त्+अण्ड = मार्त्ण्ड  
दिवा+रात्रि = दिवारात्र  
कुल+अटा = कुलटा  
पतत्+अंजलि = पतंजलि  
योगिन्+ईश्वर = योगीश्वर  
अहन्+मुख = अहर्मुख  
सीम+अंत = सीमंत/सीमांत

## समास

'समास' शब्द का शाब्दिक अर्थ है— संक्षिप्त करना। सम्+आस् = 'सम्' का अर्थ है— अच्छी तरह पास एवं 'आस्' का अर्थ है— बैठना या मिलना। अर्थात् दो शब्दों को पास-पास मिलाना।

'जब परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर, उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतन्त्र शब्द बनाया जाता है, तब इस मेल को समास कहते हैं।'

परस्पर मिले हुए शब्दों को समस्त-पद अर्थात् समास किया हुआ, या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे— यथाशक्ति, त्रिभुवन, रामराज्य आदि।

समस्त पद के शब्दों (मिले हुए शब्दों) को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को 'समास-विग्रह' कहते हैं। जैसे— यथाशक्ति = शक्ति के अनुसार।

हिन्दी में समास प्रायः नए शब्द-निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। भाषा में संक्षिप्तता, उत्कृष्टता, तीव्रता व गंभीरता लाने के लिए भी समास उपयोगी हैं। समास प्रकरण संस्कृत साहित्य में अति प्राचीन प्रतीत होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है—“मैं समासों में द्वन्द्व समास में हूँ।”

जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है, उन शब्दों को खण्ड या अवयव या पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं— पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे— घनश्याम में 'घन' पूर्व पद और 'श्याम' उत्तर पद है।

जिस खण्ड या पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, उसे प्रधान पद कहते हैं। जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता, उसे गौण पद कहते हैं। इस आधार पर (संस्कृत की दृष्टि से) समास के चार भेद माने गए हैं—

1. जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, वह—'अव्ययीभाव समास'।
2. जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वह—'तत्पुरुष समास'।
3. जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, वह—'द्वन्द्व समास' तथा
4. जिस समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान न हो, वह—'बहुब्रीहि समास'।

हिन्दी में समास के छः भेद प्रचलित हैं। जो निम्न प्रकार हैं—

1. अव्ययीभाव समास
2. तत्पुरुष समास
3. द्वन्द्व समास
4. बहुब्रीहि समास
5. कर्मधारय समास
6. द्विगु समास।

### 1. अव्ययीभाव समास—

जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, अर्थात् अव्यय पद के साथ दूसरे पद, जो संज्ञा या कुछ भी हो सकता है, का समास किया जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। इन समस्त पदों का प्रयोग क्रियाविशेषण के समान होता है।

अव्यय शब्द वे हैं जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् रूप परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त किये जाते हैं, वहाँ उसी रूप में ही रहेंगे। जैसे— यथा, प्रति, आ, हर, बे, नि आदि।

पद के क्रिया विशेषण अव्यय की भाँति प्रयोग होने पर अव्ययीभाव समास की निम्नांकित स्थितियाँ बन सकती हैं—

- (1) अव्यय+अव्यय—ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, इधर-उधर, आस-पास, जैसे-तैसे, यथा-शक्ति, यत्र-तत्र।
- (2) अव्ययों की पुनरुक्ति— धीरे-धीरे, पास-पास, जैसे-जैसे।
- (3) संज्ञा+संज्ञा— नगर-डगर, गाँव-शहर, घर-द्वार।
- (4) संज्ञाओं की पुनरुक्ति— दिन-दिन, रात-रात, घर-घर, गाँव-गाँव, वन-वन।
- (5) संज्ञा+अव्यय— दिवसोपरान्त, क्रोध-वश।
- (6) विशेषण संज्ञा— प्रतिदिवस, यथा अवसर।

- (7) कृदन्त+कृदन्त- जाते-जाते, सोते-जागते।  
(8) अव्यय+विशेषण- भरसक, यथासम्भव।

अव्ययीभाव समास के उदाहरण:

समस्त-पद — विग्रह

यथारूप — रूप के अनुसार

यथायोग्य — जितना योग्य हो

यथाशक्ति — शक्ति के अनुसार

प्रतिक्षण — प्रत्येक क्षण

भरपूर — पूरा भरा हुआ

अत्यन्त — अन्त से अधिक

रातौरात — रात ही रात में

अनुदिन — दिन पर दिन

निरन्ध्र — रन्ध्र से रहित

आमरण — मरने तक

आजन्म — जन्म से लेकर

आजीवन — जीवन पर्यन्त

प्रतिशत — प्रत्येक शत (सौ) पर

भरपेट — पेट भरकर

प्रत्यक्ष — अक्षि (आँखों) के सामने

दिनोदिन — दिन पर दिन

सार्थक — अर्थ सहित

सप्रसंग — प्रसंग के साथ

प्रत्युत्तर — उत्तर के बदले उत्तर

यथार्थ — अर्थ के अनुसार

आकंठ — कंठ तक

घर-घर — हर घर/प्रत्येक घर

यथाशीघ्र — जितना शीघ्र हो

श्रद्धापूर्वक — श्रद्धा के साथ

अनुरूप — जैसा रूप है वैसा

अकारण — बिना कारण के

हाथों हाथ — हाथ ही हाथ में

बेधड़क — बिना धड़क के

प्रतिपल — हर पल

नीरोग — रोग रहित

यथाक्रम — जैसा क्रम है

साफ-साफ — बिल्कुल स्पष्ट

यथेच्छ — इच्छा के अनुसार

प्रतिवर्ष — प्रत्येक वर्ष

निर्विरोध — बिना विरोध के

नीरव — रव (ध्वनि) रहित

बेवजह — बिना वजह के

प्रतिबिंब — बिंब का बिंब

दानार्थ — दान के लिए

उपकूल — कूल के समीप की

क्रमानुसार — क्रम के अनुसार

कर्मानुसार — कर्म के अनुसार

अंतर्व्यथा — मन के अंदर की व्यथा

यथासंभव — जहाँ तक संभव हो

यथावत् — जैसा था, वैसा ही

यथास्थान — जो स्थान निर्धारित है

प्रत्युपकार — उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार

मंद-मंद — मंद के बाद मंद, बहुत ही मंद

प्रतिलिपि — लिपि के समकक्ष लिपि

यावज्जीवन — जब तक जीवन रहे

प्रतिहिंसा — हिंसा के बदले हिंसा

बीचों-बीच — बीच के बीच में

कुशलतापूर्वक — कुशलता के साथ

प्रतिनियुक्ति — नियमित नियुक्ति के बदले नियुक्ति

एकाएक — एक के बाद एक

प्रत्याशा — आशा के बदले आशा

प्रतिक्रिया — क्रिया से प्रेरित क्रिया

सकुशल — कुशलता के साथ

प्रतिध्वनि — ध्वनि की ध्वनि

सपरिवार — परिवार के साथ

दरअसल — असल में

अनजाने — जाने बिना

अनुवंश — वंश के अनुकूल

पल-पल — प्रत्येक पल

चेहरे-चेहरे — हर चेहरे पर

प्रतिदिन — हर दिन

प्रतिक्षण — हर क्षण

सशक्त — शक्ति के साथ

दिनभर — पूरे दिन

निडर — बिना डर के

भरसक – शक्ति भर  
 सानंद – आनंद सहित  
 व्यर्थ – बिना अर्थ के  
 यथामति – मति के अनुसार  
 निर्विकार – बिना विकार के  
 अतिवृष्टि – वृष्टि की अति  
 नीरंध्र – रंध्र रहित  
 यथाविधि – जैसी विधि निर्धारित है  
 प्रतिघात – घात के बदले घात  
 अनुदान – दान की तरह दान  
 अनुगमन – गमन के पीछे गमन  
 प्रत्यारोप – आरोप के बदले आरोप  
 अभूतपूर्व – जो पूर्व में नहीं हुआ  
 आपादमस्तक – पाद (पाँव) से लेकर मस्तक तक  
 यथासमय – जो समय निर्धारित है  
 घड़ी-घड़ी – घड़ी के बाद घड़ी  
 अत्युत्तम – उत्तम से अधिक  
 अनुसार – जैसा सार है वैसा  
 निर्विवाद – बिना विवाद के  
 यथेष्ट – जितना चाहिए उतना  
 अनुकरण – करण के अनुसार करना  
 अनुसरण – सरण के बाद सरण (जाना)  
 अत्याधुनिक – आधुनिक से भी आधुनिक  
 निरामिष – बिना आमिष (माँस) के  
 घर-घर – घर ही घर  
 बेखटके – बिना खटके  
 यथासामर्थ्य – सामर्थ्य के अनुसार

## 2. तत्पुरुष समास-

जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है इसलिए वह दूसरे पद विशेष्य पर निर्भर करता है, अर्थात् दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का लिंग-वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। जैसे- जलधारा का विग्रह है- जल की धारा। 'जल की धारा बह रही है' इस वाक्य में 'बह रही है' का सम्बन्ध धारा से है जल से नहीं। धारा के कारण 'बह रही' क्रिया स्त्रीलिंग में है। यहाँ बाद वाले शब्द 'धारा' की प्रधानता है अतः यह तत्पुरुष समास है।

तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ कर्ता और सम्बोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिह्नों (विभक्तियों) का प्रायः लोप हो जाता है। अतः पहले पद में जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण होता है। जैसे – द्वितीया या कर्मकारक तत्पुरुष = स्वर्गप्राप्त – स्वर्ग को प्राप्त।

कारक चिह्न इस प्रकार हैं –

क्र.सं. कारक का नाम चिह्न

- 1— कर्ता – ने
- 2— कर्म – को
- 3— करण – से (के द्वारा)
- 4— सम्प्रदान – के लिए
- 5— अपादान – से (पृथक भाव में)
- 6— सम्बन्ध – का, की, के, रा, री, रे
- 7— अधिकरण – में, पर, ऊपर
- 8— सम्बोधन – हे!, अरे! ओ!

चूँकि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक-चिह्नों का लोप नहीं होता अतः इसमें इन दोनों के उदाहरण नहीं हैं। अन्य कारक चिह्नों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद इस प्रकार हैं –

(1) कर्म तत्पुरुष –

समस्त पद विग्रह

हस्तगत – हाथ को गत  
 जातिगत – जाति को गया हुआ  
 मुँहतोड़ – मुँह को तोड़ने वाला  
 दुःखहर – दुःख को हरने वाला  
 यशप्राप्त – यश को प्राप्त  
 पदप्राप्त – पद को प्राप्त  
 ग्रामगत – ग्राम को गत  
 स्वर्ग प्राप्त – स्वर्ग को प्राप्त  
 देशगत – देश को गत  
 आशातीत – आशा को अतीत(से परे)  
 चिड़ीमार – चिड़ी को मारने वाला  
 कठफोड़वा – काष्ठ को फोड़ने वाला  
 दिलतोड़ – दिल को तोड़ने वाला  
 जीतोड़ – जी को तोड़ने वाला  
 जीभर – जी को भरकर  
 लाभप्रद – लाभ को प्रदान करने वाला  
 शरणागत – शरण को आया हुआ  
 रोजगारोन्मुख – रोजगार को उन्मुख  
 सर्वज्ञ – सर्व को जानने वाला  
 गगनचुम्बी – गगन को चूमने वाला  
 परलोकगमन – परलोक को गमन  
 चित्तचोर – चित्त को चोरने वाला  
 ख्याति प्राप्त – ख्याति को प्राप्त  
 दिनकर – दिन को करने वाला

जितेन्द्रिय – इंद्रियों को जीतने वाला  
चक्रधर – चक्र को धारण करने वाला  
धरणीधर – धरणी (पृथ्वी) को धारण करने वाला  
गिरिधर – गिरि को धारण करने वाला  
हलधर – हल को धारण करने वाला  
मरणातुर – मरने को आतुर  
कालातीत – काल को अतीत (परे) करके  
वयप्राप्त – वय (उम्र) को प्राप्त

(ख) करण तत्पुरुष –

तुलसीकृत – तुलसी द्वारा कृत  
अकालपीडित – अकाल से पीड़ित  
श्रमसाध्य – श्रम से साध्य  
कष्टसाध्य – कष्ट से साध्य  
ईश्वरदत्त – ईश्वर द्वारा दिया गया  
रत्नजडित – रत्न से जडित  
हस्तलिखित – हस्त से लिखित  
अनुभव जन्य – अनुभव से जन्य  
रेखांकित – रेखा से अंकित  
गुरुदत्त – गुरु द्वारा दत्त  
सूरकृत – सूर द्वारा कृत  
दयाद्रु – दया से आर्द्र  
मुँहमाँगा – मुँह से माँगा  
मदमत्त – मद (नशे) से मत्त  
रोगातुर – रोग से आतुर  
भुखमरा – भूख से मरा हुआ  
कपड़छान – कपड़े से छाना हुआ  
स्वयंसिद्ध – स्वयं से सिद्ध  
शोकाकुल – शोक से आकुल  
मेघाच्छन्न – मेघ से आच्छन्न  
अश्रुपूर्ण – अश्रु से पूर्ण  
वचनबद्ध – वचन से बद्ध  
वाग्युद्ध – वाक् (वाणी) से युद्ध  
क्षुधातुर – क्षुधा से आतुर  
शल्यचिकित्सा – शल्य (चीर-फाड़) से चिकित्सा  
आँखोंदेखा – आँखों से देखा

(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष –

देशभक्ति – देश के लिए भक्ति  
गुरुदक्षिणा – गुरु के लिए दक्षिणा  
भूतबलि – भूत के लिए बलि  
प्रौढ़ शिक्षा – प्रौढ़ों के लिए शिक्षा  
यज्ञशाला – यज्ञ के लिए शाला  
शपथपत्र – शपथ के लिए पत्र  
स्नानागार – स्नान के लिए आगार  
कृष्णार्पण – कृष्ण के लिए अर्पण  
युद्धभूमि – युद्ध के लिए भूमि  
बलिपशु – बलि के लिए पशु  
पाठशाला – पाठ के लिए शाला  
रसोईघर – रसोई के लिए घर  
हथकड़ी – हाथ के लिए कड़ी  
विद्यालय – विद्या के लिए आलय  
विद्यामंदिर – विद्या के लिए मंदिर  
डाक गाड़ी – डाक के लिए गाड़ी  
सभाभवन – सभा के लिए भवन  
आवेदन पत्र – आवेदन के लिए पत्र  
हवन सामग्री – हवन के लिए सामग्री  
कारागृह – कैदियों के लिए गृह  
परीक्षा भवन – परीक्षा के लिए भवन  
सत्याग्रह – सत्य के लिए आग्रह  
छात्रावास – छात्रों के लिए आवास  
युववाणी – युवाओं के लिए वाणी  
समाचार पत्र – समाचार के लिए पत्र  
वाचनालय – वाचन के लिए आलय  
चिकित्सालय – चिकित्सा के लिए आलय  
बंदीगृह – बंदी के लिए गृह

(घ) अपादान तत्पुरुष –

रोगमुक्त – रोग से मुक्त  
लोकभय – लोक से भय  
राजद्रोह – राज से द्रोह  
जलरिक्त – जल से रिक्त  
नरकभय – नरक से भय  
देशनिष्कासन – देश से निष्कासन  
दोषमुक्त – दोष से मुक्त  
बंधनमुक्त – बंधन से मुक्त

जातिभ्रष्ट – जाति से भ्रष्ट  
कर्तव्यच्युत – कर्तव्य से च्युत  
पदमुक्त – पद से मुक्त  
जन्मांध – जन्म से अंधा  
देशनिकाला – देश से निकाला  
कामचोर – काम से जी चुराने वाला  
जन्मरोगी – जन्म से रोगी  
भयभीत – भय से भीत  
पदच्युत – पद से च्युत  
धर्मविमुख – धर्म से विमुख  
पदाक्रान्त – पद से आक्रान्त  
कर्तव्यविमुख – कर्तव्य से विमुख  
पथभ्रष्ट – पथ से भ्रष्ट  
सेवामुक्त – सेवा से मुक्त  
गुण रहित – गुण से रहित  
बुद्धिहीन – बुद्धि से हीन  
धनहीन – धन से हीन  
भाग्यहीन – भाग्य से हीन

(ड) सम्बन्ध तत्पुरुष –

देवदास – देव का दास  
लखपति – लाखों का पति (मालिक)  
करोड़पति – करोड़ों का पति  
राष्ट्रपति – राष्ट्र का पति  
सूर्योदय – सूर्य का उदय  
राजपुत्र – राजा का पुत्र  
जगन्नाथ – जगत् का नाथ  
मंत्रिपरिषद् – मंत्रियों की परिषद्  
राजभाषा – राज्य की (शासन) भाषा  
राष्ट्रभाषा – राष्ट्र की भाषा  
जमींदार – जमीन का दार (मालिक)  
भूकंप – भू का कम्पन  
रामचरित – राम का चरित  
दुःखसागर – दुःख का सागर  
राजप्रासाद – राजा का प्रासाद  
गंगाजल – गंगा का जल  
जीवनसाथी – जीवन का साथी  
देवमूर्ति – देव की मूर्ति  
सेनापति – सेना का पति  
प्रसंगानुकूल – प्रसंग के अनुकूल  
भारतवासी – भारत का वासी  
पराधीन – पर के अधीन  
स्वाधीन – स्व (स्वयं) के अधीन  
मधुमक्खी – मधु की मक्खी  
भारतरत्न – भारत का रत्न  
राजकुमार – राजा का कुमार  
राजकुमारी – राजा की कुमारी  
दशरथ सुत – दशरथ का सुत  
ग्रन्थावली – ग्रन्थों की अवली  
दीपावली – दीपों की अवली (कतार)  
गीतांजलि – गीतों की अंजलि  
कवितावली – कविता की अवली  
पदावली – पदों की अवली  
कर्माधीन – कर्म के अधीन  
लोकनायक – लोक का नायक  
रक्तदान – रक्त का दान  
सत्रावसान – सत्र का अवसान  
राष्ट्र का पिता  
अश्वमेध – अश्व का मेध  
माखनचोर – माखन का चोर  
नन्दलाल – नन्द का लाल  
दीनानाथ – दीनों का नाथ  
दीनबन्धु – दीनों (गरीबों) का बन्धु  
कर्मयोग – कर्म का योग  
ग्रामवासी – ग्राम का वासी  
दयासागर – दया का सागर  
अक्षांश – अक्ष का अंश  
देशान्तर – देश का अन्तर  
तुलादान – तुला का दान  
कन्यादान – कन्या का दान  
गोदान – गौ (गाय) का दान  
ग्रामोत्थान – ग्राम का उत्थान  
वीर कन्या – वीर की कन्या  
पुत्रवधू – पुत्र की वधू  
धरतीपुत्र – धरती का पुत्र

वनवासी – वन का वासी  
भूतबंगला – भूतों का बंगला  
राजसिंहासन – राजा का सिंहासन

(च) अधिकरण तत्पुरुष –

ग्रामवास – ग्राम में वास  
आपबीती – आप पर बीती  
शोकमग्न – शोक में मग्न  
जलमग्न – जल में मग्न  
आत्मनिर्भर – आत्म पर निर्भर  
तीर्थाटन – तीर्थों में अटन (भ्रमण)  
नरश्रेष्ठ – नरों में श्रेष्ठ  
गृहप्रवेश – गृह में प्रवेश  
घुड़सवार – घोड़े पर सवार  
वाक्पटु – वाक् में पटु  
धर्मरत – धर्म में रत  
धर्मांध – धर्म में अंधा  
लोककेन्द्रित – लोक पर केन्द्रित  
काव्यनिपुण – काव्य में निपुण  
रणवीर – रण में वीर  
रणधीर – रण में धीर  
रणजीत – रण में जीतने वाला  
रणकौशल – रण में कौशल  
आत्मविश्वास – आत्मा पर विश्वास  
वनवास – वन में वास  
लोकप्रिय – लोक में प्रिय  
नीतिनिपुण – नीति में निपुण  
ध्यानमग्न – ध्यान में मग्न  
सिरदर्द – सिर में दर्द  
देशाटन – देश में अटन  
कविपुंगव – कवियों में पुंगव (श्रेष्ठ)  
पुरुषोत्तम – पुरुषों में उत्तम  
रसगुल्ला – रस में डूबा हुआ गुल्ला  
दहीबड़ा – दही में डूबा हुआ बड़ा  
रेलगाड़ी – रेल (पटरी) पर चलने वाली गाड़ी  
मुनिश्रेष्ठ – मुनियों में श्रेष्ठ  
नरोत्तम – नरों में उत्तम  
वाग्वीर – वाक् में वीर  
पर्वतारोहण – पर्वत पर आरोहण (चढ़ना)  
कर्मनिष्ठ – कर्म में निष्ठ  
युधिष्ठिर – युद्ध में स्थिर रहने वाला  
सर्वोत्तम – सर्व में उत्तम  
कार्यकुशल – कार्य में कुशल  
दानवीर – दान में वीर  
कर्मवीर – कर्म में वीर  
कविराज – कवियों में राजा  
सत्तारुढ़ – सत्ता पर आरुढ़  
शरणागत – शरण में आया हुआ  
गजारुढ़ – गज पर आरुढ़

◆ तत्पुरुष समास के उपभेद –

उपर्युक्त भेदों के अलावा तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं –

(i) अलुक् तत्पुरुष – इसमें समास करने पर पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे—

युधिष्ठिर—युद्धि (युद्ध में) + स्थिर = ज्येष्ठ पाण्डव  
मनसिज—मनसि (मन में) + ज (उत्पन्न) = कामदेव  
खेचर—खे (आकाश) + चर (विचरने वाला) = पक्षी

(ii) नञ् तत्पुरुष – इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है किन्तु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले 'अ' और 'अन्' उपसर्ग से युक्त होता है। इसमें निषेध अर्थ में 'न' के स्थान पर यदि बाद में व्यंजन वर्ण हो तो 'अ' तथा बाद में स्वर हो तो 'न' के स्थान पर 'अन्' हो जाता है। जैसे –

अनाथ – न (अ) नाथ  
अन्याय – न (अ) न्याय  
अनाचार – न (अन्) आचार  
अनादर – न (अन्) आदर  
अजन्मा – न जन्म लेने वाला  
अमर – न मरने वाला  
अडिग – न डिगने वाला  
अशोच्य – नहीं है शोचनीय जो  
अनभिज्ञ – न अभिज्ञ  
अकर्म – बिना कर्म के  
अनादर – आदर से रहित  
अधर्म – धर्म से रहित  
अनदेखा – न देखा हुआ  
अचल – न चल  
अछूत – न छूत  
अनिच्छुक – न इच्छुक  
अनाश्रित – न आश्रित  
अगोचर – न गोचर

अनावृत – न आवृत  
नालायक – नहीं है लायक जो  
अनन्त – न अन्त  
अनादि – न आदि  
असंभव – न संभव  
अभाव – न भाव  
अलौकिक – न लौकिक  
अनपढ़ – न पढ़ा हुआ  
निर्विवाद – बिना विवाद के

### 3. द्वन्द्व समास –

जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हों तथा उनके बीच में समुच्चयबोधक—‘और, या, अथवा, आदि’ का लोप हो गया हो, तो वहाँ द्वन्द्व समास होता है। जैसे –

अन्नजल – अन्न और जल  
देश-विदेश – देश और विदेश  
राम-लक्ष्मण – राम और लक्ष्मण  
रात-दिन – रात और दिन  
खट्टामीठा – खट्टा और मीठा  
जला-भुना – जला और भुना  
माता-पिता – माता और पिता  
दूधरोटी – दूध और रोटी  
पढ़ा-लिखा – पढ़ा और लिखा  
हरि-हर – हरि और हर  
राधाकृष्ण – राधा और कृष्ण  
राधेश्याम – राधे और श्याम  
सीताराम – सीता और राम  
गौरीशंकर – गौरी और शंकर  
अड़सठ – आठ और साठ  
पच्चीस – पाँच और बीस  
छात्र-छात्राएँ – छात्र और छात्राएँ  
कन्द-मूल-फल – कन्द और मूल और फल  
गुरु-शिष्य – गुरु और शिष्य  
राग-द्वेष – राग या द्वेष  
एक-दो – एक या दो  
दस-बारह – दस या बारह  
लाख-दो-लाख – लाख या दो लाख  
पल-दो-पल – पल या दो पल  
आर-पार – आर या पार  
पाप-पुण्य – पाप या पुण्य  
उल्टा-सीधा – उल्टा या सीधा  
कर्तव्याकर्तव्य – कर्तव्य अथवा अकर्तव्य  
सुख-दुख – सुख अथवा दुख  
जीवन-मरण – जीवन अथवा मरण  
धर्माधर्म – धर्म अथवा अधर्म  
लाभ-हानि – लाभ अथवा हानि  
यश-अपयश – यश अथवा अपयश  
हाथ-पाँव – हाथ, पाँव आदि  
नोन-तेल – नोन, तेल आदि  
रुपया-पैसा – रुपया, पैसा आदि  
आहार-निद्रा – आहार, निद्रा आदि  
जलवायु – जल, वायु आदि  
कपड़े-लत्ते – कपड़े, लत्ते आदि  
बहू-बेटी – बहू, बेटी आदि  
पाला-पोसा – पाला, पोसा आदि  
साग-पात – साग, पात आदि  
काम-काज – काम, काज आदि  
खेत-खलिहान – खेत, खलिहान आदि  
लूट-मार – लूट, मार आदि  
पेड़-पौधे – पेड़, पौधे आदि  
भला-बुरा – भला, बुरा आदि  
दाल-रोटी – दाल, रोटी आदि  
ऊँच-नीच – ऊँच, नीच आदि  
धन-दौलत – धन, दौलत आदि  
आगा-पीछा – आगा, पीछा आदि  
चाय-पानी – चाय, पानी आदि  
भूल-चूक – भूल, चूक आदि  
फल-फूल – फल, फूल आदि  
खरी-खोटी – खरी, खोटी आदि

### 4. बहुव्रीहि समास –

जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात् समास किये गये दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ लिया जावे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे – 'लम्बोदर' का सामान्य अर्थ है— लम्बे उदर (पेट) वाला, परन्तु लम्बोदर सामास में अन्य अर्थ होगा – लम्बा है उदर जिसका वह—गणेश।

अजानुबाहु – जानुओं (घुटनों) तक बाहुएँ हैं जिसकी वह—विष्णु  
अजातशत्रु – नहीं पैदा हुआ शत्रु जिसका—कोई व्यक्ति विशेष  
वज्रपाणि – वह जिसके पाणि (हाथ) में वज्र है—इन्द्र  
मकरध्वज – जिसके मकर का ध्वज है वह—कामदेव

रतिकांत – वह जो रति का कांत (पति) है—कामदेव  
 आशुतोष – वह जो आशु (शीघ्र) तुष्ट हो जाते हैं—शिव  
 पंचानन – पाँच है आनन (मुँह) जिसके वह—शिव  
 वाग्देवी – वह जो वाक् (भाषा) की देवी है—सरस्वती  
 युधिष्ठिर – जो युद्ध में स्थिर रहता है—धर्मराज (ज्येष्ठ पाण्डव)  
 षडानन – वह जिसके छह आनन हैं—कार्तिकेय  
 सप्तऋषि – वे जो सात ऋषि हैं—सात ऋषि विशेष जिनके नाम निश्चित हैं  
 त्रिवेणी – तीन वेणियों (नदियों) का संगमस्थल—प्रयाग  
 पंचवटी – पाँच वटवृक्षों के समूह वाला स्थान—मध्य प्रदेश में स्थान विशेष  
 रामायण – राम का अयन (आश्रय)—वाल्मीकि रचित काव्य  
 पंचामृत – पाँच प्रकार का अमृत—दूध, दही, शक्कर, गोबर, गोमूत्र का रसायन विशेष  
 षड्दर्शन – षट् दर्शनों का समूह—छह विशिष्ट भारतीय दर्शन—न्याय, सांख्य, द्वैत आदि  
 चारपाई – चार पाएँ हैं जिसके—खाट  
 विषधर – विष को धारण करने वाला—साँप  
 अष्टाध्यायी – आठ अध्यायों वाला—पाणिनि कृत व्याकरण  
 चक्रधर – चक्र धारण करने वाला—श्रीकृष्ण  
 पतझड़ – वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं—बसंत  
 दीर्घबाहु – दीर्घ हैं बाहु जिसके—विष्णु  
 पतिव्रता – एक पति का व्रत लेने वाली—वह स्त्री  
 तिरंगा – तीन रंगों वाला—राष्ट्रध्वज  
 अंशुमाली – अंशु है माला जिसकी—सूर्य  
 महात्मा – महान् है आत्मा जिसकी—ऋषि  
 वक्रतुण्ड – वक्र है तुण्ड जिसकी—गणेश  
 दिगम्बर – दिशाएँ ही हैं वस्त्र जिसके—शिव  
 घनश्याम – जो घन के समान श्याम है—कृष्ण  
 प्रफुल्लकमल – खिले हैं कमल जिसमें—वह तालाब  
 महावीर – महान् है जो वीर—हनुमान व भगवान महावीर  
 लोकनायक – लोक का नायक है जो—जयप्रकाश नारायण  
 महाकाव्य – महान् है जो काव्य—रामायण, महाभारत आदि  
 अनंग – वह जो बिना अंग का है—कामदेव  
 एकदन्त – एक दंत है जिसके—गणेश  
 नीलकण्ठ – नीला है कण्ठ जिनका—शिव  
 पीताम्बर – पीत (पीले) हैं वस्त्र जिसके—विष्णु  
 कपीश्वर – कपि (वानरों) का ईश्वर है जो—हनुमान  
 वीणापाणि – वीणा है जिसके पाणि में—सरस्वती  
 देवराज – देवों का राजा है जो—इन्द्र  
 हलधर – हल को धारण करने वाला  
 शशिधर – शशि को धारण करने वाला—शिव  
 दशमुख – दस हैं मुख जिसके—रावण  
 चक्रपाणि – चक्र हैं जिसके पाणि में – विष्णु  
 पंचानन – पाँच हैं आनन जिसके—शिव  
 पद्मासना – पद्म (कमल) है आसन जिसका—लक्ष्मी  
 मनोज – मन से जन्म लेने वाला—कामदेव  
 गिरिधर – गिरि को धारण करने वाला—श्रीकृष्ण  
 वसुंधरा – वसु (धन, रत्न) को धारण करती है जो—धरती  
 त्रिलोचन – तीन हैं लोचन (आँखें) जिसके—शिव  
 वज्रांग – वज्र के समान अंग हैं जिसके—हनुमान  
 शूलपाणि – शूल (त्रिशूल) है पाणि में जिसके—शिव  
 चतुर्भुज – चार हैं भुजाएँ जिसकी—विष्णु  
 लम्बोदर – लम्बा है उदर जिसका—गणेश  
 चन्द्रचूड़ – चन्द्रमा है चूड़ (ललाट) पर जिसके—शिव  
 पुण्डरीकाक्ष – पुण्डरीक (कमल) के समान अक्षि (आँखें) हैं जिसकी—विष्णु  
 रघुनन्दन – रघु का नन्दन है जो—राम  
 सूतपुत्र – सूत (सारथी) का पुत्र है जो—कर्ण  
 चन्द्रमौलि – चन्द्र है मौलि (मस्तक) पर जिसके—शिव  
 चतुरानन – चार हैं आनन (मुँह) जिसके—ब्रह्मा  
 अंजननन्दन – अंजनि का नन्दन (पुत्र) है जो—हनुमान  
 पंकज – पंक (कीचड़) में जन्म लेता है जो—कमल  
 निशाचर – निशा (रात्रि) में चर (विचरण) करता है जो—राक्षस  
 मीनकेतु – मीन के समान केतु हैं जिसके—विष्णु  
 नाभिज – नाभि से जन्मा (उत्पन्न) है जो—ब्रह्मा  
 वीणावादिनी – वीणा बजाती है जो—सरस्वती  
 नगराज – नग (पहाड़ों) का राजा है जो—हिमालय  
 वज्रदन्ती – वज्र के समान दाँत हैं जिसके—हाथी  
 मारुतिनन्दन – मारुति (पवन) का नन्दन है जो—हनुमान  
 शचिपति – शचि का पति है जो—इन्द्र  
 वसन्तदूत – वसन्त का दूत है जो—कोयल  
 गजानन – गज (हाथी) जैसा मुख है जिसका—गणेश  
 गजवदन – गज जैसा वदन (मुख) है जिसका—गणेश  
 ब्रह्मपुत्र – ब्रह्मा का पुत्र है जो—नारद  
 भूतनाथ – भूतों का नाथ है जो—शिव  
 षटपद – छह पैर हैं जिसके—भौरा  
 लंकेश – लंका का ईश (स्वामी) है जो—रावण  
 सिन्धुजा – सिन्धु में जन्मी है जो—लक्ष्मी  
 दिनकर – दिन को करता है जो—सूर्य

## 5. कर्मधारय समास –

जिस समास में उत्तरपद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण अथवा उपमान (जिसके द्वारा उपमा दी जाए) हो और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय (जिसके द्वारा तुलना की जाए) हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।

इस समास के दो रूप हैं—

(i) विशेषता वाचक कर्मधारय— इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे —

महाराज – महान् है जो राजा  
महापुरुष – महान् है जो पुरुष  
नीलाकाश – नीला है जो आकाश  
महाकवि – महान् है जो कवि  
नीलोत्पल – नील है जो उत्पल (कमल)  
महापुरुष – महान् है जो पुरुष  
महर्षि – महान् है जो ऋषि  
महासंयोग – महान् है जो संयोग  
शुभागमन – शुभ है जो आगमन  
सज्जन – सत् है जो जन  
महात्मा – महान् है जो आत्मा  
सद्बुद्धि – सत् है जो बुद्धि  
मंदबुद्धि – मंद है जिसकी बुद्धि  
मंदाग्नि – मंद है जो अग्नि  
बहुमूल्य – बहुत है जिसका मूल्य  
पूर्णांक – पूर्ण है जो अंक  
भ्रष्टाचार – भ्रष्ट है जो आचार  
शिष्टाचार – शिष्ट है जो आचार  
अरुणाचल – अरुण है जो अचल  
शीतोष्ण – जो शीत है जो उष्ण है  
देवर्षि – देव है जो ऋषि है  
परमात्मा – परम है जो आत्मा  
अंधविश्वास – अंधा है जो विश्वास  
कृतार्थ – कृत (पूर्ण) हो गया है जिसका अर्थ (उद्देश्य)  
दृढ़प्रतिज्ञा – दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा  
राजर्षि – राजा है जो ऋषि है  
अंधकूप – अंधा है जो कूप  
कृष्ण सर्प – कृष्ण (काला) है जो सर्प  
नीलगाय – नीली है जो गाय  
नीलकमल – नीला है जो कमल  
महाजन – महान् है जो जन  
महादेव – महान् है जो देव  
श्वेताम्बर – श्वेत है जो अम्बर  
पीताम्बर – पीत है जो अम्बर  
अधपका – आधा है जो पका  
अधखिला – आधा है जो खिला  
लाल टोपी – लाल है जो टोपी  
सद्धर्म – सत् है जो धर्म  
कालीमिर्च – काली है जो मिर्च  
महाविद्यालय – महान् है जो विद्यालय  
परमानन्द – परम है जो आनन्द  
दुरात्मा – दुर (बुरी) है जो आत्मा  
भलमानुष – भला है जो मनुष्य  
महासागर – महान् है जो सागर  
महाकाल – महान् है जो काल  
महाद्वीप – महान् है जो द्वीप  
कापुरुष – कायर है जो पुरुष  
बड़भागी – बड़ा है भाग्य जिसका  
कलमुँहा – काला है मुँह जिसका  
नकटा – नाक कटा है जो  
जवाँ मर्द – जवान है जो मर्द  
दीर्घायु – दीर्घ है जिसकी आयु  
अधमरा – आधा मरा हुआ  
निर्विवाद – विवाद से निवृत्त  
महाप्रज्ञा – महान् है जिसकी प्रज्ञा  
नलकूप – नल से बना है जो कूप  
परकटा – पर हैं कटे जिसके  
दुमकटा – दुम है कटी जिसकी  
प्राणप्रिय – प्रिय है जो प्राणों को  
अल्पसंख्यक – अल्प हैं जो संख्या में  
पुच्छलतारा – पूँछ है जिस तारे की  
नवागन्तुक – नया है जो आगन्तुक  
वक्रतुण्ड – वक्र (टेढ़ी) है जो तुण्ड  
चौसिंगा – चार हैं जिसके सींग  
अधजला – आधा है जो जला  
अतिवृष्टि – अति है जो वृष्टि  
महारानी – महान् है जो रानी  
नराधम – नर है जो अधम (पापी)  
नवदम्पति – नया है जो दम्पति

(ii) उपमान वाचक कर्मधारय— इसमें एक पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है। जैसे —

बाहुदण्ड — बाहु है दण्ड समान  
चंद्रवदन — चंद्रमा के समान वदन (मुख)  
कमलनयन — कमल के समान नयन  
मुखारविंद — अरविंद रूपी मुख  
मृगनयनी — मृग के समान नयनों वाली  
मीनाक्षी — मीन के समान आँखों वाली  
चन्द्रमुखी — चन्द्रमा के समान मुख वाली  
चन्द्रमुख — चन्द्र के समान मुख  
नरसिंह — सिंह रूपी नर  
चरणकमल — कमल रूपी चरण  
क्रोधाग्नि — अग्नि के समान क्रोध  
कुसुमकोमल — कुसुम के समान कोमल  
ग्रन्थरत्न — रत्न रूपी ग्रन्थ  
पाषाण हृदय — पाषाण के समान हृदय  
देहलता — देह रूपी लता  
कनकलता — कनक के समान लता  
करकमल — कमल रूपी कर  
वचनामृत — अमृत रूपी वचन  
अमृतवाणी — अमृत रूपी वाणी  
विद्याधन — विद्या रूपी धन  
वज्रदेह — वज्र के समान देह  
संसार सागर — संसार रूपी सागर

## 6. द्विगु समास —

जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो और पूरा पद समाहार (समूह) या समुदाय का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसे कर्मधारय का ही एक भेद माना जाता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। स्वयं 'द्विगु' में भी द्विगु समास है। जैसे —

एकलिंग — एक ही लिंग  
दोराहा — दो राहों का समाहार  
तिराहा — तीन राहों का समाहार  
चौराहा — चार राहों का समाहार  
पंचतत्त्व — पाँच तत्त्वों का समूह  
शताब्दी — शत (सौ) अब्दों (वर्षों) का समूह  
पंचवटी — पाँच वटों (वृक्षों) का समूह  
नवरत्न — नौ रत्नों का समाहार  
त्रिफला — तीन फलों का समाहार  
त्रिभुवन — तीन भुवनों का समाहार  
त्रिलोक — तीन लोकों का समाहार  
त्रिशूल — तीन शूलों का समाहार  
त्रिवेणी — तीन वेणियों का संगम  
त्रिवेदी — तीन वेदों का ज्ञाता  
द्विवेदी — दो वेदों का ज्ञाता  
चतुर्वेदी — चार वेदों का ज्ञाता  
तिबारा — तीन हैं जिसके द्वार  
सप्ताह — सात दिनों का समूह  
चवन्नी — चार आनों का समाहार  
अठवारा — आठवें दिन को लगने वाला बाजार  
पंचामृत — पाँच अमृतों का समाहार  
त्रिलोकी — तीन लोकों का  
सतसई — सात सई (सौ) (पदों) का समूह  
एकांकी — एक अंक है जिसका  
एकतरफा — एक है जो तरफ  
इकलौता — एक है जो  
चतुर्वर्ग — चार हैं जो वर्ग  
चतुर्भुज — चार भुजाओं वाली आकृति  
त्रिभुज — तीन भुजाओं वाली आकृति  
पन्सेरी — पाँच सेर वाला बाट  
द्विगु — दो गायों का समाहार  
चौपड़ — चार फड़ों का समूह  
षट्कोण — छः कोण वाली बंद आकृति  
दुपहिया — दो पहियों वाला  
त्रिमूर्ति — तीन मूर्तियों का समूह  
दशाब्दी — दस वर्षों का समूह  
पंचतंत्र — पाँच तंत्रों का समूह  
नवरात्र — नौ रातों का समूह  
सप्तर्षि — सात ऋषियों का समूह  
दुनाली — दो नालों वाली  
चौपाया — चार पायों (पैरों) वाला  
षट्पद — छः पैरों वाला  
चौमासा — चार मासों का समाहार  
इकतीस — एक व तीस का समूह  
सप्तसिन्धु — सात सिन्धुओं का समूह  
त्रिकाल — तीन कालों का समाहार  
अष्टधातु — आठ धातुओं का समूह

## संधि व समास

असमानता –

1. संधि में दो ध्वनियों या वर्णों का योग है जबकि समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है।
2. संधि में ध्वनी विकार आवश्यक है जबकि समास में ध्वनि विकार तभी होता है जब सामासिक पद में संधि की स्थिति हो अन्यथा नहीं।

समानता –

1. दोनों ही नवीन शब्द-सृजन में सहायक हैं।
2. दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करने में सहायक हैं।
3. दोनों ही कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट करने की 'समास-शैली-निर्माण' में सहायक हैं।



---

« पीछे जायें | आगे पढ़ें »

---

- सामान्य हिन्दी
  - ◆ होम पेज
- 

प्रस्तुति:-

प्रमोद खेदड़

